



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122023-250735
CG-DL-E-18122023-250735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]
No. 834]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/अग्रहायण 24, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

सं. केविप्रा-टीएच-14-21/5/2023-टीआरएम प्रभाग.—केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कोयला आधारित तापीय उत्पादन इकाइयों का बहुमुखी संचालन) विनियम, 2023 को सीईए-टीएच-17-13/4/2022-टीईटीडी डिवीजन दिनांक 30 जनवरी, 2023 के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया गया था;

और जबकि उक्त विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियमन (2) में यह अपेक्षा की गई है कि कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों के बहुमुखी प्रचालन का कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट चरणबद्ध योजना के अनुसार होगा;

और जबकि हितधारकों की टिप्पणियों को शामिल करने के बाद चरणबद्ध योजना को अंतिम रूप दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अंतिम चरण योजना अनुलग्नक में दी गई है।

अनुलग्नक

(चरणबद्ध योजना)

1. उपयोगिताएं नीचे उल्लिखित चरणबद्ध योजना के विभिन्न चरणों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर इकाइयों को पूरी तरह से संशोधित करेंगी।
2. उपयोगिताओं को चरणबद्ध योजना में प्रत्येक इकाई के लिए उल्लिखित एक महीने की अधिकतम शटडाउन अवधि का लाभ उठाना होगा।
3. जहां तक संभव हो, उपयोगिताओं को वार्षिक ओवर हॉल (एओएच) अवधि के साथ बहुमुखी प्रचालन के लिए उन्नयन/रेट्रोफिट कार्यों की शटडाउन अवधि से मेल खाना चाहिए।
4. उपयोगिता संबंधित क्षेत्रीय विद्युत समिति (आरपीसी) के समन्वय से बहुमुखी प्रचालन के लिए उन्नयन/रेट्रोफिट कार्यों के लिए इकाइयों की शटडाउन अवधि की योजना बनाएंगी।
5. चरणबद्ध योजना के तहत निम्नलिखित पांच चरणों की पहचान की गई है जिसमें एक प्रारम्भिक चरण भी शामिल है:

I. चरण – प्रारम्भिक

अवधि: मार्च, 2024 तक पूरा किया जाना है

इस चरण के तहत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल 5850 मेगावाट (मेगावाट) क्षमता की निम्नलिखित 10 इकाइयों की योजना बनाई गई है और उनकी पहचान की गई है जिसके बहुमुखी प्रचालन के लिए अध्ययन, फील्ड परीक्षण, रेट्रोफिट आदि पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। बहुमुखी संचालन के लिए उन्नयन/रेट्रोफिटिंग का कार्य 31 मार्च, 2024 से पहले पूरा किया जाना है।

प्रारम्भिक चरण (मई, 2023 - मार्च, 2024)						
चरण	सेक्टर	संगठन	परियोजना का नाम	इकाई न.	क्षमता (मे.वा.)	क्षेत्र
प्रारम्भिक	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मउदा टी पी एस	1	500	प. क्षे.
प्रारम्भिक	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिमहादरी	3	500	द. क्षे.
प्रारम्भिक	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दादरी	6	490	उ. क्षे.
प्रारम्भिक	केन्द्रीय	डी टी सी	मैजिया टी पी एस	8	500	पू. क्षे.
प्रारम्भिक	केन्द्रीय	नेवेली लिम्नाइट	नेवेली न्यू टी पी पी	2	500	द. क्षे.
प्रारम्भिक	राज्य	के पी सी एल	सयमारस टी पी एस	1	800	द. क्षे.
प्रारम्भिक	राज्य	जी एस ई सी एल	वानकबोरी टी पी पी	6	800	प. क्षे.
प्रारम्भिक	राज्य	आर आर वी यू एन एल	सूतगढ़ एस सी टी पी पी	8	660	उ. क्षे.
प्रारम्भिक	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	सागरदिघी टी पी एस	3	500	पू. क्षे.
प्रारम्भिक	निजी	सी ई पी एल	मुथियाय	2	600	द. क्षे.
कुल प्रारम्भिक चरण				10	5850	

II. चरण -I

अवधि: जुलाई, 2024 से जून, 2026 तक

इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 51080 मेगावाट क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों की योजना बनाई गई है और बहुमुखी प्रचालन के लिए उन्नयन/रेट्रोफिटिंग के लिए उनकी पहचान की गई है जिसमें अध्ययन और क्षेत्र परीक्षण सहित इस चरण को 2 वर्षों के भीतर यानी जुलाई, 2024 से जून, 2026 तक पूरा किया जाना है।

चरण 1 (जुलाई, 2024 - जून, 2026)										
वर्ष	माह	चरण	सेक्टर	संगठन	परियोजना का नाम	इकाई न.	क्षमता (मे.वा.)	कमिशनिंग की तिथि	पिट हेड	क्षेत्र
2024	नवंबर	चरण 1	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	हस्तुआंगज टी पी एस	10	660	1/29/2022	नहीं	उ. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	निजी	जी पी जी एस एल (जीवीके)	गोइंदवाल साहिब	2	270	3/15/2016	नहीं	उ. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	राज्य	ए पी पी डी सी एल	दामोदरग संजीवैया टी पी एस	3	800	3/9/2023	नहीं	द. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	भद्राटी टी पी पी	4	270	1/9/2022	नहीं	द. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	राज्य	टी ए एन जी ई डी	मेहूर टी पी एस-II	1	600	10/11/2012	नहीं	द. क्षे.

2024	नवंबर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	नदरगारा टी पी पी	2	800	2/16/2021	नहीं	प. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	निजी	आर के एम पी पी एल	उवपिनदा टी पी पी	3	360	9/12/2017	नहीं	प. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मउदा टी पी एस	3	660	3/28/2016	नहीं	प. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	निजी	ए पी एल	मुन्दरा टी पी एस	8	660	3/3/2012	नहीं	प. क्षे.
2024	नवंबर	चरण 1	केन्द्रीय	डी टी सी	बोकारो टी पी एस 'ए' EXP	1	500	3/22/2016	नहीं	पू. क्षे.
नवंबर कुल						10	5580			
2024	दिसम्बर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	टांडा टी पी एस	6	660	3/31/2021	नहीं	उ. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	निजी	जी पी जी एस एल (जीवीके)	गोइंदवाल साहिब	1	270	2/14/2016	नहीं	उ. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	निजी	आई टी पी सी एल	आई टी पी सी एल टी पी पी	2	600	4/18/2016	नहीं	द. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	निजी	एच एन पी सी	विजना टी पी पी	2	520	3/30/2016	नहीं	द. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिमहादरी	4	500	3/30/2012	नहीं	द. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	तारा टी पी पी	2	800	7/12/2020	नहीं	प. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	निजी	रतन इंडिया	नासिक (पी) टी पी एस	5	270	5/30/2017	नहीं	प. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	निजी	ए पी एल	रायखेड़ा टी पी पी	2	685	3/28/2016	नहीं	प. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	निजी	सी जी पी एल	मुन्दरा यू एम टी पी पी	1	800	2/25/2012	नहीं	प. क्षे.
2024	दिसम्बर	चरण 1	निजी	आई बी पी आई एल	उत्कल टी पी पी (इंड बयट)	1	350	2/25/2016	नहीं	पू. क्षे.
दिसम्बर कुल						10	5455			

2025	जनवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मेजा एस टी पी पी	2	660	1/12/2021	नहीं	उ. क्षे.
2025	जनवरी	चरण 1	निजी	एस पी पी एल	थूथुकुडी एस टी IV	1	525	11/30/2021	नहीं	द. क्षे.
2025	जनवरी	चरण 1	राज्य	एस सी सी एल	सिन्गेनी टी पी पी	1	600	3/13/2016	नहीं	द. क्षे.
2025	जनवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी ई सी एल	वल्लूर टी पी पी	1	500	3/28/2012	नहीं	द. क्षे.
2025	जनवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	खरगोन एस टी पी पी	2	660	3/24/2020	नहीं	प. क्षे.
2025	जनवरी	चरण 1	निजी	रतन इंडिया	नासिक (पी) टी पी एस	4	270	5/19/2017	नहीं	प. क्षे.
2025	जनवरी	चरण 1	निजी	बालको	बालको टी पी एस	2	300	3/24/2016	नहीं	प. क्षे.
2025	जनवरी	चरण 1	केन्द्रीय	डी टी सी	रघुनाथपुर टी पी पी	2	600	1/18/2016	नहीं	पू. क्षे.
जनवरी कुल						8	4115			

2025	फ़रवरी	चरण 1	राज्य	आर आर वी यू एन एल	सूरतगढ़ एस टी पी पी	7	660	3/15/2020	नहीं	उ. क्षे.
2025	फ़रवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	उन्वाहर टी पी एस	5	210	9/28/2006	नहीं	उ. क्षे.
2025	फ़रवरी	चरण 1	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	भद्राद्री टी पी पी	3	270	3/26/2021	नहीं	द. क्षे.
2025	फ़रवरी	चरण 1	राज्य	के पी सी एल	बेल्लारी टी पी एस	3	700	3/1/2016	नहीं	द. क्षे.
2025	फ़रवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	खरगोन एस टी पी पी	1	660	9/29/2019	नहीं	प. क्षे.
2025	फ़रवरी	चरण 1	निजी	एस के एस	बिन्कोते टी पी पी	2	300	4/25/2017	नहीं	प. क्षे.
2025	फ़रवरी	चरण 1	निजी	जे एच ए पी एल	सेइओनि टी पी पी	1	600	3/22/2016	नहीं	प. क्षे.
2025	फ़रवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कुदगी एस टी पी पी	1	800	12/25/2016	नहीं	द. क्षे.
फ़रवरी कुल						8	4200			
2025	मार्च	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	टांडा टी पी एस	5	660	9/28/2019	नहीं	उ. क्षे.
2025	मार्च	चरण 1	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	भद्राद्री टी पी पी	2	270	12/7/2020	नहीं	द. क्षे.
2025	मार्च	चरण 1	निजी	एस ई आई एल	पैनामपुरम टी पी पी	2	660	9/3/2015	नहीं	द. क्षे.
2025	मार्च	चरण 1	निजी	टी आर एन ई	नवापास टी पी पी	2	300	4/18/2017	नहीं	प. क्षे.
2025	मार्च	चरण 1	राज्य	एम ए एच ए जी ई एन सी ओ	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एस टी पी एस	9	500	3/21/2016	नहीं	प. क्षे.
2025	मार्च	चरण 1	निजी	टी एस पी एल	तलवंडी साबो टी पी पी	3	660	3/29/2016	नहीं	उ. क्षे.
2025	मार्च	चरण 1	राज्य	सी एस पी जी सी एल	मारवा टी पी एस	2	500	7/15/2016	नहीं	प. क्षे.
2025	मार्च	चरण 1	निजी	सी जी पी एल	मुन्द्रा यू एम टी पी पी	3	800	10/16/2012	नहीं	प. क्षे.

2025	मार्च	चरण 1	राज्य	एस सी सी एल	सिंगरनी टी पी पी	2	600	11/25/2016	नहीं	द. क्षे.
मार्च कुल						9	4950			
2025	जुलाई	चरण 1	राज्य	आर आर वी यू एन एल	छबडा टी पी पी	6	660	3/29/2019	नहीं	उ. क्षे.
2025	जुलाई	चरण 1	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	भद्राद्री टी पी पी	1	270	6/5/2020	नहीं	द. क्षे.
2025	जुलाई	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी एल	थूथुकुडी (जे वी) टी पी पी	2	500	7/9/2015	नहीं	द. क्षे.
2025	जुलाई	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	गदरवाहा टी पी पी	1	800	3/29/2019	नहीं	प. क्षे.
2025	जुलाई	चरण 1	निजी	रतन इंडिया	नासिक (पी) टी पी एस	3	270	4/14/2017	नहीं	प. क्षे.
2025	जुलाई	चरण 1	निजी	एस ई आई एल	एस जी पी एल टी पी पी	1	660	11/12/2016	नहीं	द. क्षे.
2025	जुलाई	चरण 1	राज्य	एम ए एच ए जी ई एन सी ओ	कोयडी टी पी एस	9	660	3/15/2016	नहीं	प. क्षे.
जुलाई कुल						7	3820			
2025	नवंबर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मेजा एस टी पी पी	1	660	3/31/2018	नहीं	उ. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	कोथानुदेम टी पी एस (स्तर-7)	12	800	12/26/2018	नहीं	द. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	राज्य	ए पी पी डी सी एल	दामोदरम संजीवैया टी पी एस	2	800	3/17/2015	नहीं	द. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	राज्य	एम पी पी जी सी एल	श्री सिंगाजी टी पी पी	4	660	3/27/2019	नहीं	प. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सोलापुर एस टी पी एस	1	660	4/7/2017	नहीं	प. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	निजी	आर के एम पी पी एल	उवापिंदा टी पी पी	2	360	1/28/2016	नहीं	प. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी ई सी एल	वल्तूर टी पी पी	2	500	2/28/2013	नहीं	द. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	निजी	सी जी पी एल	मुन्द्रा यू एम टी पी पी	2	800	7/17/2012	नहीं	प. क्षे.
2025	नवंबर	चरण 1	निजी	एस पी पी एल	शिरपुर टी पी पी	1	150	9/28/2017	नहीं	प. क्षे.
नवंबर कुल						9	5390			
2025	दिसम्बर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कुदगी एस टी पी पी	3	800	3/12/2018	नहीं	द. क्षे.
2025	दिसम्बर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी एल	थूथुकुडी (जे वी) टी पी पी	1	500	3/10/2015	नहीं	द. क्षे.
2025	दिसम्बर	चरण 1	निजी	आर के एम पी पी एल	उवापिंदा टी पी पी	4	360	3/20/2019	नहीं	प. क्षे.
2025	दिसम्बर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मउदा टी पी एस	4	660	3/18/2017	नहीं	प. क्षे.
2025	दिसम्बर	चरण 1	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	उतरी चेन्नई टी पी एस	4	600	9/13/2013	नहीं	द. क्षे.
2025	दिसम्बर	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	लारा टी पी पी	1	800	3/23/2018	नहीं	प. क्षे.
2025	दिसम्बर	चरण 1	निजी	रतन इंडिया	अमरावती	5	270	3/12/2015	नहीं	प. क्षे.
दिसम्बर कुल						7	3990			
2026	जनवरी	चरण 1	राज्य	आर आर वी यू एन एल	छबडा टी पी पी	5	660	4/4/2017	नहीं	उ. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	राज्य	ए पी जी ई एन सी ओ	रयलसीमा टी पी एस	6	600	3/12/2018	नहीं	द. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	निजी	एस ई आई एल	पैनामपुरम टी पी पी	1	660	2/7/2015	नहीं	द. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	राज्य	एम पी पी जी सी एल	श्री सिंगाजी टी पी पी	3	660	11/18/2018	नहीं	प. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	निजी	रतन इंडिया	नासिक (पी) टी पी एस	2	270	2/15/2017	नहीं	प. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	उतरी चेन्नई टी पी एस	5	600	3/9/2013	नहीं	द. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	9	660	3/9/2012	नहीं	प. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	निजी	डब्ल्यू पी सी एल	अकलतरा टी पी एस	2	600	1/18/2018	नहीं	प. क्षे.
2026	जनवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मउदा टी पी एस	2	500	3/29/2013	नहीं	प. क्षे.
जनवरी कुल						9	5210			
2026	फ़रवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	उन्वाहर टी पी एस	6	500	3/31/2017	नहीं	उ. क्षे.
2026	फ़रवरी	चरण 1	राज्य	के पी सी एल	बरमारस टी पी पी	2	800	3/29/2017	नहीं	द. क्षे.
2026	फ़रवरी	चरण 1	राज्य	ए पी पी डी सी एल	दामोदरम संजीवैया टी पी एस	1	800	8/28/2014	नहीं	द. क्षे.
2026	फ़रवरी	चरण 1	निजी	ए पी एल	माहन टी पी पी	2	600	10/7/2018	नहीं	प. क्षे.
2026	फ़रवरी	चरण 1	राज्य	एम ए एच ए जी ई एन सी ओ	कोयडी टी पी एस	10	660	12/28/2016	नहीं	प. क्षे.
2026	फ़रवरी	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सोलापुर एस टी पी एस	2	660	3/30/2019	नहीं	प. क्षे.
2026	फ़रवरी	चरण 1	निजी	सी जी पी एल	मुन्द्रा यू एम टी पी पी	5	800	3/18/2013	नहीं	प. क्षे.
फ़रवरी कुल						7	4820			
2026	मार्च	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कुदगी एस टी पी पी	2	800	3/23/2017	नहीं	द. क्षे.
2026	मार्च	चरण 1	केन्द्रीय	एन टी ई सी एल	वल्तूर टी पी पी	3	500	2/28/2014	नहीं	द. क्षे.
2026	मार्च	चरण 1	निजी	एस के एस	बिन्कोते टी पी पी	1	300	3/28/2018	नहीं	प. क्षे.
2026	मार्च	चरण 1	निजी	टी आर एन ई	नवापास टी पी पी	1	300	8/14/2016	नहीं	प. क्षे.
2026	मार्च	चरण 1	राज्य	एम ए एच ए जी	पारली टी पी एस	8	250	3/30/2016	नहीं	प. क्षे.

2026	मार्च	चरण I	निजी	ई एन सी ओ एम बी पी एम पी एल	अनुपपुर टी पी पी	2	600	3/30/2016	नहीं	प. क्षे.
2026	मार्च	चरण I	निजी	सी जी पी एल	मुन्द्रा यू एम टी पी पी	4	800	1/16/2013	नहीं	प. क्षे.
मार्च कुल						7	3550			
कुल इकाईयाँ एवं क्षमता (चरण I)						91	51080			

III. चरण - II

अवधि: जुलाई, 2026 से जून, 2028

इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 46825 मेगावाट क्षमता की निम्नलिखित 100 इकाइयों की योजना बनाई गई है और अध्ययन और फील्ड परीक्षणों सहित बहुमुखी प्रचालन वास्ते उन्नयन/रेट्रोफिटिंग के लिए उनकी पहचान की गई है। इस चरण को 2 वर्षों के भीतर यानी जुलाई, 2026 से जून, 2028 तक पूरा किया जाना है।

चरण II (जुलाई, 2026 - जून, 2028)										
वर्ष	माह	सेक्टर	संगठन	परियोजना का नाम	इकाई न.	क्षमता (मे. वा.)	कमिशनिंग की तिथि	पिट हेड	क्षेत्र	
2026	जुलाई	निजी	आर के एम पी पी एल	उत्प्रेरणा टी पी पी	1	360	10/28/2015	नहीं	प. क्षे.	
2026	जुलाई	निजी	जे पी एल	तमनार टी पी पी	1	600	1/7/2015	नहीं	प. क्षे.	
2026	जुलाई	निजी	डी बी पी सी एल	बरदह टी पी एस	1	600	2/23/2014	नहीं	प. क्षे.	
2026	जुलाई	निजी	ए पी एल	माहन टी पी पी	1	600	2/24/2013	नहीं	प. क्षे.	
2026	जुलाई	निजी	एस ई आई एल	एस जी पी एल टी पी पी	2	660	2/15/2017	नहीं	द. क्षे.	
2026	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	उत्तरी करनपुर एस टी पी पी	1	660	1/18/2023	नहीं	पू. क्षे.	
2026	जुलाई	निजी	ए डी एच यू एन आई के	महादेव प्रसाद एस टी पी पी	2	270	3/29/2013	नहीं	पू. क्षे.	
2026	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बोगाईगाँव टी पी पी	3	250	3/23/2019	नहीं	उ.पू.क्षे.	
जुलाई कुल					8	4000				
2026	अगस्त	राज्य	जी एस ई सी एल	सितका REP. टी पी एस	4	250	9/25/2015	नहीं	प. क्षे.	
2026	अगस्त	राज्य	एम पी पी जी सी एल	श्री सिंगाजी टी पी पी	2	600	10/15/2014	नहीं	प. क्षे.	
2026	अगस्त	निजी	रतन इंडिया	अमरावती टी पी एस	2	270	2/17/2014	नहीं	प. क्षे.	
2026	अगस्त	निजी	जी एम आर एनजी	जी एम आर वरेख टी पी एस	1	300	2/7/2013	नहीं	प. क्षे.	
2026	अगस्त	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	काकतीय टी पी एस	2	600	12/31/2015	नहीं	द. क्षे.	
2026	अगस्त	केन्द्रीय	एन पी जी सी एल	नबीनगर एस टी पी पी	3	660	3/6/2022	नहीं	पू. क्षे.	
2026	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मुजफ्फरपुर टी पी एस	4	195	3/24/2016	नहीं	पू. क्षे.	
2026	अगस्त	निजी	जी एम आर एनजी	कमलंगा टी पी एस	1	350	3/29/2013	नहीं	पू. क्षे.	
अगस्त कुल					8	3225				
2026	नवंबर	निजी	एम सी सी पी एल	बन्दाखर टी पी पी	1	300	6/19/2015	नहीं	प. क्षे.	
2026	नवंबर	निजी	ए पी एल	तिरिया टी पी एस	5	660	9/25/2014	नहीं	प. क्षे.	
2026	नवंबर	राज्य	एम पी पी जी सी एल	सतपुड़ा टी पी एस	11	250	12/25/2013	नहीं	प. क्षे.	
2026	नवंबर	निजी	एच एन पी सी	विज़न टी पी पी	1	520	12/27/2015	नहीं	द. क्षे.	
2026	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	नबीनगर टी पी पी	4	250	11/10/2021	नहीं	पू. क्षे.	
2026	नवंबर	केन्द्रीय	डी वी सी	कोडरमा टी पी पी	2	500	2/15/2013	नहीं	पू. क्षे.	
2026	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बोगाईगाँव टी पी पी	1	250	6/22/2015	नहीं	उ.पू.क्षे.	
2026	नवंबर	राज्य	आर आर वी यू एन एल	कालीसिंध टी पी एस	2	600	6/6/2015	नहीं	उ. क्षे.	
नवंबर कुल					8	3330				
2026	दिसम्बर	निजी	बालको	बालको टी पी एस	1	300	6/4/2015	नहीं	प. क्षे.	
2026	दिसम्बर	निजी	जे पी पी वी एल	निगरी टी पी पी	1	660	8/29/2014	नहीं	प. क्षे.	
2026	दिसम्बर	राज्य	एम पी पी जी सी एल	श्री सिंगाजी टी पी पी	1	600	11/18/2013	नहीं	प. क्षे.	
2026	दिसम्बर	निजी	आई टी पी सी एल	आई टी पी सी एल टी पी पी	1	600	9/19/2015	नहीं	द. क्षे.	
2026	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बर I	1	660	10/30/2021	नहीं	पू. क्षे.	
2026	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	मुजफ्फरपुर टी पी एस	3	195	3/31/2015	नहीं	पू. क्षे.	
2026	दिसम्बर	निजी	ए डी एच यू एन आई के	महादेव प्रसाद एस टी पी पी	1	270	11/19/2012	नहीं	पू. क्षे.	
2026	दिसम्बर	निजी	एन पी एल	राजपुरा टी पी पी	2	700	7/6/2014	नहीं	उ. क्षे.	
दिसम्बर कुल					8	3985				
2027	जनवरी	निजी	एम बी पी एम पी एल	अनुपपुर टी पी पी	1	600	4/20/2015	नहीं	प. क्षे.	

2027	जनवरी	निजी	डब्ल्यू पी सी एल	अकलतारा टी पी एस	4	600	8/22/2014	नहीं	प. क्षे.
2027	जनवरी	निजी	डी आई पी एल	धारीवाल टी पी पी	1	300	11/3/2013	नहीं	प. क्षे.
2027	जनवरी	निजी	सी ई पी एल	मुथियास टी पी पी	1	600	12/2/2014	नहीं	द. क्षे.
2027	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	न्यू नबीनगर टी पी पी	2	660	3/31/2021	नहीं	पू. क्षे.
2027	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बर II	5	660	3/4/2015	नहीं	पू. क्षे.
2027	जनवरी	निजी	एम पी एल	मैथोन आर बी टी पी पी	2	525	3/31/2012	नहीं	पू. क्षे.
2027	जनवरी	निजी	टी एस पी एल	तलवंडी साबो टी पी पी	1	660	6/17/2014	नहीं	उ. क्षे.
जनवरी कुल					8	4605			
2027	फरवरी	राज्य	महाजैनको	कोराड़ी टी पी एस	8	660	3/30/2015	नहीं	प. क्षे.
2027	फरवरी	निजी	डी आई पी एल	धारीवाल टी पी पी	2	300	5/28/2014	नहीं	प. क्षे.
2027	फरवरी	निजी	जी एम आर एनजी	जी एम आर वरोरा टी पी एस	2	300	8/27/2013	नहीं	प. क्षे.
2027	फरवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	न्यू नबीनगर टी पी पी	1	660	7/12/2019	नहीं	पू. क्षे.
2027	फरवरी	निजी	एच ई एल	हल्दिया टी पी पी	2	300	2/16/2015	नहीं	पू. क्षे.
2027	फरवरी	केन्द्रीय	डी टी सी	दुर्गापुर स्टील टी पी एस	2	500	3/23/2012	नहीं	पू. क्षे.
2027	फरवरी	राज्य	आर आर वी यू एन एल	कालीसिंध टी पी एस	1	600	5/2/2014	नहीं	उ. क्षे.
फरवरी कुल					7	3320			
2027	मार्च	राज्य	जी एस ई सी एल	सितका REP. टी पी एस	3	250	3/29/2015	नहीं	प. क्षे.
2027	मार्च	निजी	वी पी एल	सलोरा टी पी पी	1	135	4/10/2014	नहीं	प. क्षे.
2027	मार्च	निजी	डब्ल्यू पी सी एल	अकलतारा टी पी एस	3	600	8/13/2013	नहीं	प. क्षे.
2027	मार्च	राज्य	महाजैनको	भुसावल टी पी एस	5	500	3/30/2012	नहीं	प. क्षे.
2027	मार्च	निजी	जे आई टी पी एल	देरग टी पी पी	2	600	1/24/2015	नहीं	पू. क्षे.
2027	मार्च	निजी	एल पी जी सी एल	तलितपुर टी पी एस	1	660	3/26/2016	नहीं	उ. क्षे.
2027	मार्च	निजी	एन पी एल	राजपुरा टी पी पी	1	700	1/24/2014	नहीं	उ. क्षे.
मार्च कुल					7	3445			
2027	जुलाई	राज्य	महाजैनको	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एस टी पी एस	8	500	3/29/2015	नहीं	प. क्षे.
2027	जुलाई	निजी	ए पी एल	अवथा भंडार	1	600	3/31/2014	नहीं	प. क्षे.
2027	जुलाई	निजी	ए पी एल	तिरोरा टी पी एस	3	660	6/10/2013	नहीं	प. क्षे.
2027	जुलाई	निजी	एच ई एल	हल्दिया टी पी पी	1	300	1/14/2015	नहीं	पू. क्षे.
2027	जुलाई	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	सागरदेवी टी पी एस	4	500	12/15/2016	नहीं	पू. क्षे.
2027	जुलाई	निजी	टी एस पी एल	तलवंडी साबो टी पी पी	2	660	10/25/2015	नहीं	उ. क्षे.
2027	जुलाई	निजी	ए पी एल	कवाई टी पी एस	2	660	12/24/2013	नहीं	उ. क्षे.
जुलाई कुल					7	3880			
2027	अगस्त	निजी	जे पी एल	तमनार टी पी पी	4	600	3/28/2015	नहीं	प. क्षे.
2027	अगस्त	निजी	वी आई पी	बुटीबोरी टी पी पी	1	300	3/31/2014	नहीं	प. क्षे.
2027	अगस्त	निजी	जे पी पी वी एल	बीना टी पी एस	2	250	3/31/2013	नहीं	प. क्षे.
2027	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	नबीनगर टी पी पी	3	250	2/26/2019	नहीं	पू. क्षे.
2027	अगस्त	केन्द्रीय	डी वी सी	रघुनाथपुर टी पी पी	1	600	8/24/2014	नहीं	पू. क्षे.
2027	अगस्त	निजी	एल पी जी सी एल	तलितपुर टी पी एस	2	660	1/8/2016	नहीं	उ. क्षे.
2027	अगस्त	निजी	ए पी एल	कवाई टी पी एस	1	660	5/28/2013	नहीं	उ. क्षे.
अगस्त कुल					7	3320			
2027	नवंबर	निजी	डी बी पी सी एल	बरवर्डी टी पी एस	2	600	3/24/2015	नहीं	प. क्षे.
2027	नवंबर	राज्य	सी एस पी जी सी एल	माखा टी पी एस	1	500	3/30/2014	नहीं	प. क्षे.
2027	नवंबर	निजी	ए पी एल	तिरोरा टी पी एस	2	660	3/25/2013	नहीं	प. क्षे.
2027	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बरौनी टी पी एस	9	250	3/31/2018	नहीं	पू. क्षे.
2027	नवंबर	निजी	जे आई टी पी एल	देरग टी पी पी	1	600	4/10/2014	नहीं	पू. क्षे.
2027	नवंबर	निजी	पी पी जी सी एल	प्रयागराज टी पी पी	2	660	9/6/2016	नहीं	उ. क्षे.
2027	नवंबर	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	परिच्छा टी पी एस	6	250	3/11/2013	नहीं	उ. क्षे.
नवंबर कुल					7	3520			
2027	दिसम्बर	निजी	रतन इंडिया	अमरावती टी पी एस	4	270	3/4/2015	नहीं	प. क्षे.
2027	दिसम्बर	निजी	जे पी एल	तमनार टी पी पी	3	600	3/30/2014	नहीं	प. क्षे.
2027	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बरौनी टी पी एस	8	250	1/11/2018	नहीं	पू. क्षे.
2027	दिसम्बर	राज्य	डी पी एल	डी. पी. एल. टी पी एस	8	250	3/31/2014	नहीं	पू. क्षे.
2027	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	नबीनगर टी पी पी	1	250	3/20/2016	नहीं	पू. क्षे.
2027	दिसम्बर	निजी	पी पी जी सी एल (टाटा)	प्रयागराज टी पी पी	3	660	5/22/2017	नहीं	उ. क्षे.
दिसम्बर कुल					6	2280			
2028	जनवरी	निजी	जे पी पी वी एल	निगरी टी पी पी	2	660	2/27/2015	नहीं	प. क्षे.
2028	जनवरी	निजी	ए पी एल	तिरोरा टी पी एस	4	660	3/23/2014	नहीं	प. क्षे.
2028	जनवरी	राज्य	एम पी पी जी सी एल	सतपुड़ा टी पी एस	10	250	3/22/2013	नहीं	प. क्षे.
2028	जनवरी	निजी	एच एम ई एल	हिरमाये टी पी पी	2	150	12/31/2017	नहीं	पू. क्षे.
2028	जनवरी	निजी	जी एम आर एनजी	कमलंगा टी पी एस	3	350	3/21/2014	नहीं	पू. क्षे.
2028	जनवरी	निजी	एल पी जी सी एल	तलितपुर टी पी एस	3	660	4/1/2016	नहीं	उ. क्षे.

जनवरी कुल					6	2730			
2028	फरवरी	निजी	ए पी एल	शयखेडा टी पी पी	1	685	2/24/2015	नहीं	प. क्षे.
2028	फरवरी	निजी	जे पी एल	तमनार टी पी पी	2	600	3/10/2014	नहीं	प. क्षे.
2028	फरवरी	निजी	आई ई पी एल	बेला टी पी एस	1	270	3/20/2013	नहीं	प. क्षे.
2028	फरवरी	निजी	एच एम ई एल	हिरंमाये टी पी पी	1	150	6/7/2017	नहीं	पू. क्षे.
2028	फरवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बोगाईगाँव टी पी पी	2	250	3/22/2017	नहीं	उ.पू.क्षे.
2028	फरवरी	निजी	रतन इंडिया	अमरावती टी पी एस	1	270	3/25/2013	नहीं	प. क्षे.
2028	फरवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बर II	4	660	11/20/2013	नहीं	पू. क्षे.
फरवरी कुल					7	2885			
2028	मार्च	निजी	रतन इंडिया	अमरावती टी पी एस	3	270	1/29/2015	नहीं	प. क्षे.
2028	मार्च	निजी	रतन इंडिया	नासिक (पी) टी पी एस	1	270	2/25/2014	नहीं	प. क्षे.
2028	मार्च	राज्य	जी एस ई सी एल	उकाई टी पी एस	6	500	3/5/2013	नहीं	प. क्षे.
2028	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	नबीनगर टी पी पी	2	250	4/3/2017	नहीं	पू. क्षे.
2028	मार्च	निजी	पी पी जी सी एल (टाटा)	प्रयागराज टी पी पी	1	660	12/25/2015	नहीं	उ. क्षे.
2028	मार्च	निजी	जी एम आर एनजी	कमलंगा टी पी एस	2	350	9/28/2013	नहीं	पू. क्षे.
मार्च कुल					6	2300			
कुल इकाइयों एवं क्षमता (चरण II)					100	46825			

IV. चरण - III

इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 37215 मेगावाट क्षमता की इकाइयों की निम्नलिखित 101 इकाइयों की योजना बनाई गई है और अध्ययन और फील्ड परीक्षणों सहित बहुमुखी प्रचालन वास्ते उन्नयन/रेट्रोफिटिंग के लिए उनकी पहचान की गई है। इस चरण को 18 महीने की अवधि के भीतर यानी जुलाई, 2028 से दिसंबर, 2029 तक पूरा किया जाना है।

चरण III (जुलाई, 2028 – दिसंबर, 2029)									
वर्ष	माह	सेक्टर	संगठन	परियोजना का नाम	इकाई न.	क्षमता (मे. वा.)	कमिशनिंग की तिथि	पिट हेड	क्षेत्र
2028	जुलाई	निजी	आर. पी. एस. सी. एल.	रोज़ा टी पी पी चरण -II	3	300	12/28/2011	नहीं	उ. क्षे.
2028	जुलाई	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	परिच्छा टी पी एस	3	210	3/29/2006	नहीं	उ. क्षे.
2028	जुलाई	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली न्यू टी पी पी	1	500	12/20/2019	हाँ	द. क्षे.
2028	जुलाई	राज्य	ए पी जी ई एन सी ओ	शयतसीमा टी पी एस	4	210	11/20/2007	नहीं	द. क्षे.
2028	जुलाई	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	7	660	11/7/2011	नहीं	प. क्षे.
2028	जुलाई	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	जे एस डब्ल्यू रत्नागिरी टी पी पी	1	300	8/24/2010	नहीं	प. क्षे.
2028	जुलाई	निजी	जे पी एल	ओ पी ज़िंदल टी पी एस	4	250	6/17/2008	नहीं	प. क्षे.
2028	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दरिपाती एस टी पी एस	2	800	7/21/2021	हाँ	पू. क्षे.
2028	जुलाई	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	बकरेश्वर टी पी एस	5	210	12/24/2007	नहीं	पू. क्षे.
जुलाई कुल					9	3440			
2028	अगस्त	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	हरदुआगंज टी पी एस	8	250	9/27/2011	नहीं	उ. क्षे.
2028	अगस्त	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	कोथानुदेम टी पी एस (न्यू)	11	500	6/26/2011	नहीं	द. क्षे.
2028	अगस्त	राज्य	ए पी जी ई एन सी ओ	शयतसीमा टी पी एस	3	210	1/25/2007	नहीं	द. क्षे.
2028	अगस्त	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	जे एस डब्ल्यू रत्नागिरी टी पी पी	4	300	10/8/2011	नहीं	प. क्षे.
2028	अगस्त	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	3	330	8/2/2010	नहीं	प. क्षे.
2028	अगस्त	केन्द्रीय	एन एस पी सी एल	भिलाई टी पी एस	1	250	4/20/2008	नहीं	प. क्षे.
2028	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दरिपाती एस टी पी एस	1	800	12/30/2019	हाँ	पू. क्षे.
2028	अगस्त	केन्द्रीय	ए पी एल	तियोरा टी पी एस	1	660	9/11/2012	नहीं	प. क्षे.
2028	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	इंदिरा गाँधी एस टी पी पी	3	500	11/7/2012	नहीं	उ. क्षे.
2028	अगस्त	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	सागरदेवी टी पी एस	2	300	12/21/2007	नहीं	पू. क्षे.
अगस्त कुल					10	4100			

2028	नवंबर	राज्य	एच पी जी सी एल	राजीव गाँधी टी पी एस	2	600	10/1/2010	नहीं	उ. क्ष.
2028	नवंबर	निजी	ए पी एल	उडुपी टी पी पी	2	600	4/16/2011	नहीं	द. क्ष.
2028	नवंबर	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली (ई एक्स टी) टी पी एस	2	210	7/22/2003	हाँ	द. क्ष.
2028	नवंबर	राज्य	महाजेनको	खापरखोटा टी पी एस	5	500	8/5/2011	नहीं	प. क्ष.
2028	नवंबर	निजी	डब्ल्यू पी सी एल	वर्धा वरोरा टी पी पी	1	135	6/5/2010	नहीं	प. क्ष.
2028	नवंबर	निजी	जे पी एल	ओ पी जिनट टी पी एस	3	250	3/6/2008	नहीं	प. क्ष.
2028	नवंबर	केन्द्रीय	डी वी सी	दुर्गापुर स्टील टी पी एस	1	500	7/29/2011	नहीं	पू. क्ष.
2028	नवंबर	निजी	जे पी पी वी एल	बीना टी पी एस	1	250	8/12/2012	नहीं	प. क्ष.
2028	नवंबर	राज्य	डी पी एल	डी पी एल टी पी एस	7	300	11/24/2007	नहीं	पू. क्ष.
नवंबर कुल					9	3345			
2028	दिसम्बर	निजी	आर पी एस सी एल	रोज़ा टी पी पी चरण -I	2	300	6/26/2010	नहीं	उ. क्ष.
2028	दिसम्बर	राज्य	ए पी जेनको	रायलसीमा टी पी एस	5	210	12/31/2010	नहीं	द. क्ष.
2028	दिसम्बर	राज्य	के पी सी एल	रायवूर टी पी एस	7	210	12/11/2002	नहीं	द. क्ष.
2028	दिसम्बर	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	6	660	7/20/2011	नहीं	प. क्ष.
2028	दिसम्बर	राज्य	महाजेनको	पारस टी पी एस	2	250	3/27/2010	नहीं	प. क्ष.
2028	दिसम्बर	निजी	जे पी एल	ओ पी जिनट टी पी एस	2	250	2/10/2008	नहीं	प. क्ष.
2028	दिसम्बर	केन्द्रीय	डी वी सी	कोडरमा टी पी पी	1	500	7/20/2011	नहीं	पू. क्ष.
2028	दिसम्बर	निजी	जे एच पी एल (एच आर)	महात्मा गाँधी टी पी एस	1	660	1/12/2012	नहीं	उ. क्ष.
2028	दिसम्बर	राज्य	डब्ल्यू वी पी डी सी	संतली टी पी एस	5	250	11/7/2007	नहीं	पू. क्ष.
दिसम्बर कुल					9	3290			
2029	जनवरी	राज्य	एच पी जी सी एल	राजीव गाँधी टी पी एस	1	600	3/31/2010	नहीं	उ. क्ष.
2029	जनवरी	निजी	ए पी एल	उडुपी टी पी पी	1	600	7/23/2010	नहीं	पू. क्ष.
2029	जनवरी	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली (ई एक्स टी) टी पी एस	1	210	10/21/2002	हाँ	पू. क्ष.
2029	जनवरी	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	जे एस डब्ल्यू रत्नागिरी टी पी पी	3	300	5/6/2011	नहीं	प. क्ष.
2029	जनवरी	निजी	लैंको	पथादी टी पी पी	2	300	3/25/2010	नहीं	प. क्ष.
2029	जनवरी	राज्य	सी एस पी जी सी एल	डी एस पी एम टी पी एस	2	250	12/11/2007	नहीं	प. क्ष.
2029	जनवरी	निजी	एम पी एल	मैथोन आर बी टी पी पी	1	525	6/30/2011	नहीं	पू. क्ष.
2029	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिमहादरी	2	500	8/24/2002	नहीं	द. क्ष.
2029	जनवरी	केन्द्रीय	डी वी सी	मैजिया टी पी एस	4	210	10/12/2004	नहीं	पू. क्ष.
जनवरी कुल					9	3495			
2029	फ़रवरी	निजी	आर पी एस सी एल	रोज़ा टी पी पी चरण - I	1	300	2/10/2010	नहीं	उ. क्ष.
2029	फ़रवरी	राज्य	के पी सी एल	रायवूर टी पी एस	8	250	6/26/2010	नहीं	द. क्ष.
2029	फ़रवरी	निजी	टी ए व्यू ए	नेवेली टी पी एस (जेड)	1	250	10/21/2002	नहीं	द. क्ष.
2029	फ़रवरी	निजी	डब्ल्यू पी सी एल	वर्धा वरोरा टी पी पी	4	135	4/30/2011	नहीं	प. क्ष.
2029	फ़रवरी	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	2	330	3/17/2010	नहीं	प. क्ष.
2029	फ़रवरी	निजी	जे पी एल	ओ पी जिनट टी पी एस	1	250	9/2/2007	नहीं	प. क्ष.
2029	फ़रवरी	राज्य	डब्ल्यू वी पी डी सी	संतली टी पी एस	6	250	6/29/2011	नहीं	पू. क्ष.
2029	फ़रवरी	निजी	आर पी एस सी एल	रोज़ा टी पी पी चरण -II	4	300	3/28/2012	नहीं	उ. क्ष.
2029	फ़रवरी	निजी	टाट पी सी एल	जोबेरा टी पी एस	3	120	2/1/2002	नहीं	पू. क्ष.
फ़रवरी कुल					9	2185			
2029	मार्च	राज्य	पी एस पी सी एल	जी एच टी पी एस (लक्ष मोहब्बत)	4	250	7/31/2008	नहीं	उ. क्ष.
2029	मार्च	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	काकतीय टी पी एस	1	500	5/27/2010	नहीं	द. क्ष.
2029	मार्च	निजी	डब्ल्यू पी सी एल	वर्धा वरोरा टी पी पी	3	135	1/21/2011	नहीं	प. क्ष.
2029	मार्च	राज्य	महाजेनको	पारली टी पी एस	7	250	2/10/2010	नहीं	प. क्ष.
2029	मार्च	राज्य	एम पी पी जी सी एल	संजय गाँधी टी पी एस	5	500	6/18/2007	नहीं	प. क्ष.
2029	मार्च	निजी	एस ई एल	स्टरलाइट टी पी पी	2	600	12/29/2010	नहीं	पू. क्ष.
2029	मार्च	निजी	ई पी जी एल	सलाखा टी पी पी	2	600	6/13/2012	नहीं	प. क्ष.
2029	मार्च	राज्य	महाजेनको	भुसावल टी पी एस	4	500	3/7/2012	नहीं	प. क्ष.
2029	मार्च	राज्य	डब्ल्यू वी पी डी सी	बकरेश्वर टी पी एस	4	210	3/21/2001	नहीं	पू. क्ष.

मार्च कुल					9	3545			
2029	जुलाई	राज्य	एच पी जी सी एल	यमुना नगर टी पी एस	2	300	3/29/2008	नहीं	उ. क्षे.
2029	जुलाई	राज्य	ए पी जेनको	डॉ. एन. टाटा राव टी पी एस	7	500	10/8/2009	नहीं	द. क्षे.
2029	जुलाई	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	5	660	12/26/2010	नहीं	प. क्षे.
2029	जुलाई	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	1	330	8/4/2009	नहीं	प. क्षे.
2029	जुलाई	राज्य	महाजेनको	पारस टी पी एस	1	250	5/31/2007	नहीं	प. क्षे.
2029	जुलाई	निजी	एस ई एल	स्टरलाइट टी पी पी	1	600	10/14/2010	नहीं	पू. क्षे.
2029	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	इंदिरा गाँधी एस टी पी पी	1	500	10/31/2010	नहीं	उ. क्षे.
2029	जुलाई	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	हरदुआंगंज टी पी एस	9	250	5/25/2012	नहीं	उ. क्षे.
2029	जुलाई	निजी	टाटा पी सी एल	जोबोबेश टी पी एस	2	120	2/1/2001	नहीं	पू. क्षे.
जुलाई कुल					9	3510			
2029	अगस्त	राज्य	पी एस पी सी एल	जी एच टी पी एस (लहरा मोहब्बत)	3	250	1/3/2008	नहीं	उ. क्षे.
2029	अगस्त	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	तोरेगलू टी पी एस (एस बी यू. II)	2	300	8/24/2009	नहीं	द. क्षे.
2029	अगस्त	निजी	ए पी एल	मुन्द्रा टी पी एस	4	330	12/20/2010	नहीं	प. क्षे.
2029	अगस्त	केन्द्रीय	एन एस पी सी एल	भिलाई टी पी एस	2	250	7/12/2009	नहीं	प. क्षे.
2029	अगस्त	राज्य	सी एस पी जी सी एल	डी एस पी एम टी पी एस	1	250	3/30/2007	नहीं	प. क्षे.
2029	अगस्त	राज्य	के पी सी एल	बेल्लारी टी पी एस	2	500	3/23/2012	नहीं	द. क्षे.
2029	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	इंदिरा गाँधी एस टी पी पी	2	500	11/5/2011	नहीं	उ. क्षे.
2029	अगस्त	निजी	ई पी जी एल	सलाया टी पी पी	1	600	2/22/2012	नहीं	प. क्षे.
2029	अगस्त	केन्द्रीय	डी वी सी	मेजिया टी पी एस	7	500	9/30/2010	नहीं	पू. क्षे.
अगस्त कुल					9	3480			
2029	नवंबर	राज्य	एच पी जी सी एल	यमुना नगर टी पी एस	1	300	11/1/2007	नहीं	उ. क्षे.
2029	नवंबर	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	तोरेगलू टी पी एस (एस बी यू. II)	1	300	4/23/2009	नहीं	द. क्षे.
2029	नवंबर	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	जे एस डब्ल्यू रत्नागिरी टी पी पी	2	300	12/9/2010	नहीं	प. क्षे.
2029	नवंबर	निजी	लैको	पथादी टी पी पी	1	300	6/4/2009	नहीं	प. क्षे.
2029	नवंबर	राज्य	महाजेनको	पारली टी पी एस	6	250	2/16/2007	नहीं	प. क्षे.
2029	नवंबर	राज्य	ओ पी जी सी	आई बी वैली टी पी एस	4	660	7/2/2019	हाँ	पू. क्षे.
2029	नवंबर	निजी	जे एच पी एल (एच आर)	महात्मा गाँधी टी पी एस	2	660	4/11/2012	नहीं	उ. क्षे.
2029	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दादरी (एन सी टी पी पी)	5	490	1/25/2010	नहीं	उ. क्षे.
2029	नवंबर	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	परिच्छा टी पी एस	5	250	5/24/2012	नहीं	उ. क्षे.
2029	नवंबर	निजी	सी ई एस सी	बज़ बज़ टी पी एस	3	250	9/29/2009	नहीं	पू. क्षे.
नवंबर कुल					10	3760			
2029	दिसम्बर	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	परिच्छा टी पी एस	4	210	12/28/2006	नहीं	उ. क्षे.
2029	दिसम्बर	राज्य	केपीसीएल	बेल्लारी टी पी एस	1	500	12/3/2007	नहीं	द. क्षे.
2029	दिसम्बर	निजी	डब्ल्यूपीसीएल	वर्धा वरोरा टी पी पी	2	135	10/10/2010	नहीं	प. क्षे.
2029	दिसम्बर	निजी	टाटा पीसीएल	ट्रोम्बे टी पी एस	8	250	3/26/2009	नहीं	प. क्षे.
2029	दिसम्बर	राज्य	महाजेनको	खापरखेडा टी पी एस	4	210	1/7/2001	नहीं	प. क्षे.
2029	दिसम्बर	राज्य	ओपीजीसी	आई बी वैली टी पी एस	3	660	7/2/2019	हाँ	पू. क्षे.
2029	दिसम्बर	केन्द्रीय	एनटीपीसी	सिमहादी	1	500	2/22/2002	नहीं	द. क्षे.
2029	दिसम्बर	निजी	वीआईपी	बुटीबोरी टी पी पी	2	300	8/17/2012	नहीं	प. क्षे.
2029	दिसम्बर	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	सागरदिघी टी पी एस	1	300	7/20/2008	नहीं	पू. क्षे.
दिसम्बर कुल					9	3065			
कुल इकाईयाँ एवं क्षमता (चरण III)					101	37215			

V. चरण -IV

अवधि: जनवरी, 2030 से दिसंबर, 2030 तक

इस चरण के अंतर्गत, विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुल मिलाकर 55767 मेगावाट क्षमता की इकाइयों की निम्नलिखित 191 इकाइयों की योजना बनाई गई है और अध्ययन और फील्ड परीक्षणों सहित बहुमुखी प्रचालन वास्ते उन्नयन/रेट्रोफिटिंग के लिए उनकी पहचान की गई है। इस चरण को 12 महीने की अवधि के भीतर यानी जनवरी, 2030 से दिसंबर, 2030 तक पूरा किया जाना है।

यदि उपयोजिताओं को यह समझ में आता है कि इस चरण के अंतर्गत 40 वर्ष से अधिक आयु की इकाइयों का 40% प्रचालन व्यवहार्य/संभव नहीं है, तो उपयोजिताएं उपयुक्त रेट्रोफिट/अध्ययन/परीक्षण द्वारा 2-शिफ्ट प्रचालन का विकल्प चुन सकती हैं। हालांकि, इस चरण के अध्ययन/परीक्षण सहित रेट्रोफिट्स की अवधि समान होगी।

चरण IV (जनवरी, 2030 - दिसंबर, 2030)										
वर्ष	माह	सेक्टर	संगठन	परियोजना का नाम	इकाई न.	क्षमता (मे. वा.)	कमिशनिंग की तिथि	पिट हेड	31.12.2029 तक आयु	क्षेत्र
2030	जनवरी	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	अनपरा टी पी एस	7	500	3/6/2016	हाँ	13.8	उ. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रिहंद एस टी पी एस	3	500	1/31/2005	हाँ	24.9	उ. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	पी एस पी सी एल	रोपड़ टी पी एस	6	210	3/30/1993	नहीं	36.8	उ. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	आर आर वी यू एन एल	कोटा टी पी एस	4	210	5/1/1989	नहीं	40.7	उ. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	पी एस पी सी एल	रोपड़ टी पी एस	3	210	3/31/1988	नहीं	41.8	उ. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिंगरौली एस टी पी एस	5	200	2/26/1984	हाँ	45.9	उ. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिंगरौली एस टी पी एस	1	200	2/14/1982	हाँ	47.9	उ. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	फरक्का एस टी पी एस	6	500	3/7/2011	हाँ	18.8	पू. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	तालचर एस टी पी एस	3	500	2/21/2003	हाँ	26.9	पू. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	ओ पी जी सी	आई बी वैली टी पी एस	1	210	6/2/1994	हाँ	35.6	पू. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	कोटावाट टी पी एस	6	210	3/17/1991	नहीं	38.8	पू. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बरोनी टी पी एस	6	105	5/1/1983	नहीं	46.7	पू. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रामानुडेम एस टी पी एस	7	500	9/26/2004	हाँ	25.3	द. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	उत्तरी वेन्नई टी पी एस	2	210	3/27/1995	नहीं	34.8	द. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली टी पी एस-II	7	210	6/19/1993	हाँ	36.6	द. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	ए पी जेनको	डॉ. एन. टाटा राव टी पी एस	4	210	8/23/1990	नहीं	39.4	द. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	ए पी जेनको	नेवेली टी पी एस-II	1	210	1/17/1988	हाँ	42.0	द. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रामानुडेम एस टी पी एस	3	200	12/13/1984	हाँ	45.1	द. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	शुक्कुडी टी पी एस	1	210	7/9/1979	नहीं	50.5	द. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विध्यावल एस टी पी एस	13	500	8/6/2015	हाँ	14.4	प. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विध्यावल एस टी पी एस	12	500	3/22/2013	हाँ	16.8	प. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिपत एस टी पी एस	5	500	8/13/2008	हाँ	21.4	प. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	एम पी पी जी सी एल	संजय गांधी टी पी एस	3	210	2/28/1999	नहीं	30.9	प. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	एम पी पी जी सी एल	संजय गांधी टी पी एस	1	210	3/26/1993	नहीं	36.8	प. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	महा जेनको	खापरखोड़ा टी पी एस	2	210	1/8/1990	नहीं	40.0	प. क्षे.
2030	जनवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कोरबा एस टी पी एस	5	500	3/25/1988	हाँ	41.8	प. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	महा जेनको	चंद्रपुर(महाराष्ट्र) एस टी पी एस	4	210	3/8/1986	नहीं	43.8	प. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	जी एस ई सी एल	वानाकबोरी टी पी एस	3	210	3/15/1984	नहीं	45.8	प. क्षे.
2030	जनवरी	राज्य	महा जेनको	कोराडी टी पी एस	6	210	3/30/1982	नहीं	47.8	प. क्षे.
2030	जनवरी	निजी	टीओआर. पीओडब्ल्यू (यू एन ओ एस यू जी ई एन)	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	1	120	10/12/1978	नहीं	51.3	प. क्षे.
जनवरी कुल					30	8685				
2030	फरवरी	राज्य	यू पी आर वी	अनपरा टी पी एस	6	500	6/8/2015	हाँ	14.6	उ. क्षे.

2030	फ़रवरी	राज्य	यू एन एल पी एस पी सी एल	जीएच टी पी एस (तेह.मोह.)	2	210	10/16/1998	नहीं	31.2	उ. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दादरी (एन सी टी पी पी)	3	210	3/23/1993	नहीं	36.8	उ. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	ऊंचाहार टी पी एस	2	210	3/22/1989	नहीं	40.8	उ. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	टांडा टी पी एस	1	110	3/21/1988	नहीं	41.8	उ. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिंगरौली एस टी पी एस	4	200	11/2/1983	हाँ	46.2	उ. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	ओबरा टी पी एस	12	200	3/28/1981	नहीं	48.8	उ. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कहलगांव टी पी एस	7	500	7/31/2009	हाँ	20.4	पू. क्षे.
2030	फ़रवरी	निजी	सी ई एस	बज बज टी पी एस	2	250	3/6/1999	नहीं	30.8	पू. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	टी वी एन एल	तेनुघाट टी पी एस	1	210	4/14/1994	नहीं	35.7	पू. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	फरक्का एस टी पी एस	3	200	8/6/1987	हाँ	42.4	पू. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	के पी सी एल	रायचूर टी पी एस	6	210	7/22/1999	नहीं	30.5	द. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	ए पी जेनको	रायलसीमा टी पी एस	2	210	2/25/1995	नहीं	34.9	द. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली टी पी एस-II	6	210	10/30/1992	हाँ	37.2	द. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	मेदूर टी पी एस	4	210	3/27/1990	नहीं	39.8	द. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	मेदूर टी पी एस	2	210	12/1/1987	नहीं	42.1	द. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रामानुडेम एस टी पी एस	2	200	5/29/1984	हाँ	45.6	द. क्षे.
2030	फ़रवरी	निजी	एस पी एल	सासन यू एम टी पी पी	6	660	3/19/2015	हाँ	14.8	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	सी एस पी जी सी एल	कोखा-वेस्ट टी पी एस	5	500	3/22/2013	हाँ	16.8	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	एम पी पी जी सी एल	अमरकंटक एक्सटेंशन टी पी एस	3	210	6/15/2008	हाँ	21.6	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	जी एस ई सी एल	वानकबोरी टी पी एस	7	210	12/31/1998	नहीं	31.0	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	महाजेनको	चंद्रपुर (महायाष्ट्र) एस टी पी एस	6	500	3/11/1992	नहीं	37.8	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विंध्याचल एस टी पी एस	4	210	12/26/1989	हाँ	40.0	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	जी एस ई सी एल	वानकबोरी टी पी एस	6	210	11/18/1987	नहीं	42.1	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	महाजेनको	चंद्रपुर (महायाष्ट्र) एस टी पी एस	3	210	5/3/1985	नहीं	44.7	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	निजी	टाटा पी सी एल	द्रौंबे टी पी एस	5	500	1/25/1984	नहीं	46.0	प. क्षे.
2030	फ़रवरी	राज्य	जी एस ई सी एल	वानकबोरी टी पी एस	1	210	3/23/1982	नहीं	47.8	प. क्षे.
फ़रवरी कुल					27	7470				
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रिहंद एस टी पी एस	6	500	10/17/2013	हाँ	16.2	उ. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	टांडा टी पी एस	4	110	2/20/1998	नहीं	31.9	उ. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दादरी (एन सी टी पी पी)	2	210	12/18/1992	नहीं	37.1	उ. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	टांडा टी पी एस	2	110	3/11/1989	नहीं	40.8	उ. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	अनपरा टी पी एस	3	210	3/12/1988	हाँ	41.8	उ. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	आर आर वी यू एन एल	कोटा टी पी एस	2	110	7/13/1983	नहीं	46.5	उ. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	ओबरा टी पी एस	9	200	1/26/1980	नहीं	50.0	उ. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कहलगांव टी पी एस	6	500	3/16/2008	हाँ	21.8	पू. क्षे.
2030	मार्च	निजी	सी ई एस सी	बज बज टी पी एस	1	250	9/16/1997	नहीं	32.3	पू. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कहलगांव टी पी एस	2	210	3/17/1994	हाँ	35.8	पू. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	फरक्का एस टी पी एस	2	200	12/24/1986	हाँ	43.0	पू. क्षे.
2030	मार्च	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	तोरेगल्लू टी पी एस (एस बी यू-1)	2	130	5/16/1999	नहीं	30.6	द. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	ए पी जेनको	डी. एन. टाटा राव टी पी एस	6	210	2/24/1995	नहीं	34.9	द. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	शृकुडी टी पी एस	4	210	2/11/1992	नहीं	37.9	द. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रामानुडेम एस टी पी एस	6	500	10/16/1989	हाँ	40.2	द. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली टी पी एस-II	3	210	3/29/1987	हाँ	42.8	द. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रामानुडेम एस टी पी एस	1	200	10/27/1983	हाँ	46.2	द. क्षे.
2030	मार्च	निजी	एस पी एल	सासन यू एम टी पी पी	5	660	8/24/2014	हाँ	15.4	प. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विंध्याचल एस टी पी एस	11	500	6/14/2012	हाँ	17.6	प. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिपत एस टी पी एस	4	500	5/27/2007	हाँ	22.6	प. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	जी एस ई सी एल	गांधीनगर टी पी एस	5	210	3/17/1998	नहीं	31.8	प. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	जी एस ई सी एल	गांधीनगर टी पी एस	4	210	7/20/1991	नहीं	38.5	प. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	महा जेनको	खापरखेड़ा टी पी एस	1	210	3/26/1989	नहीं	40.8	प. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विंध्याचल एस टी पी एस	1	210	10/10/1987	हाँ	42.3	प. क्षे.

2030	मार्च	राज्य	सी एस पी जी सी एल	कोखा-वेस्ट टी पी एस	3	210	3/26/1985	हाँ	44.8	प. क्षे.
2030	मार्च	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कोखा एस टी पी एस	2	200	10/31/1983	हाँ	46.2	प. क्षे.
2030	मार्च	राज्य	महाजनको	नासिक टी पी एस	5	210	1/30/1981	नहीं	49.0	प. क्षे.
मार्च कुल					27	7190				
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रिहद एस टी पी एस	5	500	5/25/2012	हाँ	17.6	उ. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	पी एस पी सी एल	जी एच टी पी एस (वेह.मोह.)	1	210	12/29/1997	नहीं	32.0	उ. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	पी एस पी सी एल	रोपड़ टी पी एस	5	210	3/29/1992	नहीं	37.8	उ. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	पी एस पी सी एल	रोपड़ टी पी एस	4	210	1/29/1989	नहीं	40.9	उ. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिंगरौली एस टी पी एस	7	500	11/24/1987	हाँ	42.1	उ. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिंगरौली एस टी पी एस	3	200	3/28/1983	हाँ	46.8	उ. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	ओबरा टी पी एस	10	200	1/14/1979	नहीं	51.0	उ. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कहलगांव टी पी एस	5	500	3/31/2007	हाँ	22.8	पू. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	टी वी एन एल	तेनुघाट टी पी एस	2	210	10/10/1996	नहीं	33.2	पू. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	फरवका एस टी पी एस	5	500	2/16/1994	हाँ	35.9	पू. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	फरवका एस टी पी एस	1	200	1/1/1986	हाँ	44.0	पू. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	के पी सी एल	रायतूर टी पी एस	5	210	1/31/1999	नहीं	30.9	द. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	उतरी चेन्नई टी पी एस	1	210	10/25/1994	नहीं	35.2	द. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली टी पी एस-II	5	210	12/31/1991	हाँ	38.0	द. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	ए पी जेनको	डॉ. एन. टाटा राव टी पी एस	3	210	10/5/1989	नहीं	40.3	द. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली टी पी एस-II	2	210	2/6/1987	हाँ	42.9	द. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	शुशुकुडी टी पी एस	3	210	4/16/1982	नहीं	47.7	द. क्षे.
2030	जुलाई	निजी	एस पी एल	सासन यू एम टी पी पी	3	660	5/21/2014	हाँ	15.6	प. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिपत एस टी पी एस	3	660	6/2/2012	हाँ	17.6	प. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विध्याचल एस टी पी एस	10	500	3/8/2007	हाँ	22.8	प. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	महा जेनको	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एस टी पी एस	7	500	10/1/1997	नहीं	32.3	प. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	महा जेनको	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एस टी पी एस	5	500	3/22/1991	नहीं	38.8	प. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कोखा एस टी पी एस	6	500	2/26/1989	हाँ	40.9	प. क्षे.
2030	जुलाई	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कोखा एस टी पी एस	4	500	5/31/1987	हाँ	42.6	प. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	जी एस ई सी एल	उकाई टी पी एस	5	210	1/30/1985	नहीं	44.9	प. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	सी एस पी जी सी एल	कोखा-वेस्ट टी पी एस	2	210	6/21/1983	हाँ	46.6	प. क्षे.
2030	जुलाई	राज्य	महाजनको	नासिक टी पी एस	4	210	7/10/1980	नहीं	49.5	प. क्षे.
जुलाई कुल					27	9150				
2030	अगस्त	निजी	एल ए पी पी एल	अनपरा सी टी पी एस	2	600	11/15/2011	हाँ	18.1	उ. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	अनपरा टी पी एस	5	500	7/4/1994	हाँ	35.5	उ. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दादरी (एन सी टी पी पी)	1	210	12/21/1991	नहीं	38.1	उ. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	ऊंचाहार टी पी एस	1	210	11/21/1988	नहीं	41.1	उ. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	अनपरा टी पी एस	2	210	2/28/1987	हाँ	42.9	उ. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	आर आर वी यू एन एल	कोटा टी पी एस	1	110	1/17/1983	नहीं	47.0	उ. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	हरदुआगंज टी पी एस	7	105	3/31/1978	नहीं	51.8	उ. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	तालवेर एस टी पी एस	6	500	2/6/2005	हाँ	24.9	पू. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कहलगांव टी पी एस	4	210	3/18/1996	हाँ	33.8	पू. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	कोलाघाट टी पी एस	5	210	12/28/1993	नहीं	36.0	पू. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	डब्ल्यू बी पी डी सी	कोलाघाट टी पी एस	3	210	12/16/1985	नहीं	44.1	पू. क्षे.
2030	अगस्त	निजी	जे एस डब्ल्यू ई एल	तोरेगल्लू टी पी एस (एसबीयू-I)	1	130	1/15/1999	नहीं	31.0	द. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	के पी सी एल	रायतूर टी पी एस	4	210	9/29/1994	नहीं	35.3	द. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	शुशुकुडी टी पी एस	5	210	3/31/1991	नहीं	38.8	द. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रामानुडेम एस टी पी एस	5	500	3/26/1989	हाँ	40.8	द. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	मैदूर टी पी एस	1	210	1/4/1987	नहीं	43.0	द. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	शुशुकुडी टी पी एस	2	210	12/17/1980	नहीं	49.1	द. क्षे.

2030	अगस्त	निजी	एस पी एल	सासन यू एम टी पी पी	4	660	3/25/2014	हाँ	15.8	प. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिपत एस टी पी एस	2	660	12/24/2011	हाँ	18.0	प. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विध्यावल एस टी पी एस	9	500	7/27/2006	हाँ	23.4	प. क्षे.
2030	अगस्त	निजी	ए पी एल	दहानू टी पी एस	2	250	3/29/1995	नहीं	34.8	प. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विध्यावल एस टी पी एस	6	210	2/1/1991	हाँ	38.9	प. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विध्यावल एस टी पी एस	3	210	2/3/1989	हाँ	40.9	प. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	जी एस ई सी एल	वानकबोरी टी पी एस	5	210	9/23/1986	नहीं	43.3	प. क्षे.
2030	अगस्त	निजी	टीओआर. पीओडब्ल्यू (यू एन ओ एस यू जी ई एन)	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	2	121	12/31/1984	नहीं	45.0	प. क्षे.
2030	अगस्त	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कोखा एस टी पी एस	1	200	2/28/1983	हाँ	46.9	प. क्षे.
2030	अगस्त	राज्य	महाजेनको	नासिक टी पी एस	3	210	4/26/1979	नहीं	50.7	प. क्षे.
अगस्त कुल					27	7776				
2030	नवंबर	निजी	एल ए पी पी एल	अनपरा सी टी पी एस	1	600	11/12/2011	हाँ	18.1	उ. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	दादरी (एन सी टी पी पी)	4	210	3/24/1994	नहीं	35.8	उ. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	टांडा टी पी एस	3	110	3/28/1990	नहीं	39.8	उ. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	आर आर वी यू एन एल	कोटा टी पी एस	3	210	9/25/1988	नहीं	41.3	उ. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिंगरौली एस टी पी एस	6	500	12/23/1986	हाँ	43.1	उ. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिंगरौली एस टी पी एस	2	200	11/25/1982	हाँ	47.1	उ. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	ओबरा टी पी एस	11	200	12/31/1977	नहीं	52.0	उ. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	तालचेर एस टी पी एस	5	500	5/13/2004	हाँ	25.7	पू. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	ओ पी जी सी	आई बी वेली टी पी एस	2	210	10/22/1995	हाँ	34.2	पू. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	फरवका एस टी पी एस	4	500	9/25/1992	हाँ	37.3	पू. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	बरौनी टी पी एस	7	105	3/31/1985	नहीं	44.8	पू. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	टी एस जी ई एन सी ओ	कोठागुडेम टी पी एस (नया)	10	250	2/28/1998	नहीं	31.9	द. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	ए पी जी ई एन सी ओ	डॉ. एन. टाटा राव टी पी एस	5	210	3/31/1994	नहीं	35.8	द. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	नेवेली लिग्नाइट	नेवेली टी पी एस-II	4	210	3/30/1991	हाँ	38.8	द. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	टी ए एन जी ई डी सी ओ	मैदूर टी पी एस	3	210	3/22/1989	नहीं	40.8	द. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	के पी सी एल	रायवूर टी पी एस	2	210	3/2/1986	नहीं	43.9	द. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	ए पी जी ई एन सी ओ	डॉ. एन. टाटा राव टी पी एस	2	210	10/10/1980	नहीं	49.3	द. क्षे.
2030	नवंबर	निजी	एस पी एल	सासन यू एम टी पी पी	2	660	12/18/2013	हाँ	16.0	प. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	सिपत एस टी पी एस	1	660	6/27/2011	हाँ	18.5	प. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	महाजेनको	खापरखेड़ा टी पी एस	3	210	5/31/2000	नहीं	29.6	प. क्षे.
2030	नवंबर	निजी	ए पी एल	दहानू टी पी एस	1	250	1/6/1995	नहीं	35.0	प. क्षे.
2030	नवंबर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विध्यावल एस टी पी एस	5	210	3/31/1990	हाँ	39.8	प. क्षे.
2030	नवंबर	निजी	टीओआर. पीओडब्ल्यू (यू एन ओ एस यू जी ई एन)	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	3	121	9/28/1988	नहीं	41.3	प. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	सी एस पी जी सी एल	कोखा-वेस्ट टी पी एस	4	210	3/13/1986	हाँ	43.8	प. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	सी एस पी जी सी एल	कोखा-वेस्ट टी पी एस	1	210	3/30/1984	हाँ	45.8	प. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	जी एस ई सी एल	वानकबोरी टी पी एस	2	210	1/15/1983	नहीं	47.0	प. क्षे.
2030	नवंबर	राज्य	जी एस ई सी एल	उमई टी पी एस	4	200	3/28/1979	नहीं	50.8	प. क्षे.
नवंबर कुल					27	7586				
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रिहंद एस टी पी एस	4	500	9/24/2005	हाँ	24.3	उ. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	अनपरा टी पी एस	4	500	7/19/1993	हाँ	36.5	उ. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रिहंद एस टी पी एस	2	500	7/5/1989	हाँ	40.5	उ. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रिहंद एस टी पी एस	1	500	3/31/1988	हाँ	41.8	उ. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	अनपरा टी पी एस	1	210	3/24/1986	हाँ	43.8	उ. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	यू पी आर वी यू एन एल	ओबरा टी पी एस	13	200	7/21/1982	नहीं	47.5	उ. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	तालचेर एस टी पी एस	4	500	10/25/2003	हाँ	26.2	पू. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कहलगांव टी पी एस	3	210	3/24/1995	हाँ	34.8	पू. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कहलगांव टी पी एस	1	210	3/31/1992	हाँ	37.8	पू. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	डब्ल्यू बी पी	कोलाघाट टी पी एस	4	210	1/24/1984	नहीं	46.0	पू. क्षे.

2030	दिसम्बर	राज्य	डी ए एन जी ई डी सी ओ	उत्तरी चेन्नई टी पी एस	3	210	2/24/1996	नहीं	33.9	द. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	ए पी जी ई एन सी ओ	रायलसीमा टी पी एस	1	210	3/31/1994	नहीं	35.8	द. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	के पी सी एल	रायवूर टी पी एस	3	210	3/30/1991	नहीं	38.8	द. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	रामानुडेम एस टी पी एस	4	500	6/26/1988	हाँ	41.5	द. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	के पी सी एल	रायवूर टी पी एस	1	210	3/29/1985	नहीं	44.8	द. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	ए पी जी ई एन सी ओ	डॉ. एन. टाल राव टी पी एस	1	210	11/1/1979	नहीं	50.2	द. क्षे.
2030	दिसम्बर	निजी	एस पी एल	सासन यू एम टी पी पी	1	660	5/30/2013	हाँ	16.6	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कोरबा एस टी पी एस	7	500	11/25/2010	हाँ	19.1	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	एम पी पी जी सी एल	संजय प्रौद्योगिकी टी पी एस	4	210	11/23/1999	नहीं	30.1	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	एम पी पी जी सी एल	संजय प्रौद्योगिकी टी पी एस	2	210	3/27/1994	नहीं	35.8	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	जी एस ई सी एल	गांधी नगर टी पी एस	3	210	3/20/1990	नहीं	39.8	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	विंध्याचल एस टी पी एस	2	210	7/23/1988	हाँ	41.5	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	जी एस ई सी एल	वानकबोरी टी पी एस	4	210	3/9/1986	नहीं	43.8	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	केन्द्रीय	एन टी पी सी	कोरबा एस टी पी एस	3	200	3/17/1984	हाँ	45.8	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	महा जेनको	भुसावल टी पी एस	3	210	9/18/1982	नहीं	47.3	प. क्षे.
2030	दिसम्बर	राज्य	जी एस ई सी एल	उकाई टी पी एस	3	200	1/21/1979	नहीं	51.0	प. क्षे.
दिसम्बर कुल					26	7910				
कुल इकाईयाँ एवं क्षमता (चरण IV)					191	55767				

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./617/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2023

CEA-TH-14-21/5/2023-TRM Division.—Whereas the Central Electricity Authority (Flexible Operation of Coal based Thermal Generating Units) Regulations, 2023 was notified by the Central Electricity Authority vide notification no. CEA-TH-17-13/4/2022-TETD Division dated 30th January, 2023;

And whereas the sub-regulation (2) of regulation 5 of the said regulations requires that the implementation of the flexible operation of the Coal based thermal generating Units shall be as per the Phasing Plan specified by the Authority from time to time;

And whereas the phasing plan has been finalized after incorporating the comments from the stakeholders. The final phasing plan approved by the Authority is attached herein under at **Annexure**.

Annexure

(PHASING PLAN)

1. The utilities shall modify the units strictly within the duration stipulated under various phases in the Phasing Plan mentioned herein under.
2. The utilities shall avail the maximum shutdown period of one month as mentioned against each unit in the Phasing Plan.
3. As far as possible, the utilities shall match the shutdown period of upgradation/retrofits works for flexible operation with Annual Over Haul (AOH) period.
4. The utilities shall plan shutdown period of the units for upgradation/retrofits works for flexible operation in coordination with the respective Regional Power Committee (RPC).
5. The following five phases have been identified under the Phasing Plan including a Pilot Phase:

I. PHASE- PILOT**Duration: To be completed by March, 2024**

Under this phase, the following 10 nos. of units of capacity 5850 MegaWatt (MW) in aggregate of various thermal power plants have been planned and identified for which the study, field tests, retrofits etc. have already been initiated for flexible operation. The upgradation/retrofitting for flexible operation to be completed before 31st March, 2024.

PILOT PHASE (May, 2023 - March, 2024)

Phase	Sector	Organisation	Name of Project	Unit No.	Capacity (MW)	Region
Pilot	Central	NTPC	MAUDA TPS	1	500	WR
Pilot	Central	NTPC	SIMHADRI	3	500	SR
Pilot	Central	NTPC	DADRI	6	490	NR
Pilot	Central	DVC	MEJA TPS	8	500	ER
Pilot	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI NEW TPP	2	500	SR
Pilot	State	KPCL	YERMARUS TPS	1	800	SR
Pilot	State	GSECL	WANAKBORI TPP	6	800	WR
Pilot	State	RRVUNL	SURATGARH SCTPP	8	660	NR
Pilot	State	WBPDC	SAGARDIGHI TPS	3	500	ER
Pilot	Private	CEPL	MUTHIARA	2	600	SR
Pilot Phase Total				10	5850	

II. PHASE-I**Duration: July, 2024 to June, 2026**

Under this phase, the following 91 Nos. of units of capacity 51080 MW in aggregate of various thermal power plants have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the study and field tests. This phase to be completed within 2 years i.e. from July, 2024 to June, 2026.

PHASE 1 (JULY , 2024 - JUNE , 2026)

Year	Month	Phase	Sector	Organisation	Name of Project	Unit No.	Capacity (MW)	Date of Commissioning	Pit head	Region
2024	November	Phase 1	State	UPRVUNL	HARDUAGANJ TPS	10	660	1/29/2022	N	NR
2024	November	Phase 1	Private	GPGSL (GVK)	GOINDWAL SAHIB	2	270	3/15/2016	N	NR
2024	November	Phase 1	State	APPDCL	DAMODARAM SANJEEVAIAH TPS	3	800	3/9/2023	N	SR
2024	November	Phase 1	State	TSGENCO	BHADRADRI TPP	4	270	1/9/2022	N	SR
2024	November	Phase 1	State	TANGEDCO	METTUR TPS-II	1	600	10/11/2012	N	SR
2024	November	Phase 1	Central	NTPC	GADARWARA TPP	2	800	2/16/2021	N	WR
2024	November	Phase 1	Private	RKMPL	UCHPINDA TPP	3	360	9/12/2017	N	WR
2024	November	Phase 1	Central	NTPC	MAUDA TPS	3	660	3/28/2016	N	WR
2024	November	Phase 1	Private	APL	MUNDRA TPS	8	660	3/3/2012	N	WR
2024	November	Phase 1	Central	DVC	BOKARO TPS `A` EXP	1	500	3/22/2016	N	ER
November Total						10	5580			
2024	December	Phase 1	Central	NTPC	TANDA TPS	6	660	3/31/2021	N	NR
2024	December	Phase 1	Private	GPGSL (GVK)	GOINDWAL SAHIB	1	270	2/14/2016	N	NR
2024	December	Phase 1	Private	ITPCL	ITPCL TPP	2	600	4/18/2016	N	SR
2024	December	Phase 1	Private	HNPC	VIZAG TPP	2	520	3/30/2016	N	SR
2024	December	Phase 1	Central	NTPC	SIMHADRI	4	500	3/30/2012	N	SR
2024	December	Phase 1	Central	NTPC	LARA TPP	2	800	7/12/2020	N	WR
2024	December	Phase 1	Private	RATTANINDIA	NASIK (P) TPS	5	270	5/30/2017	N	WR
2024	December	Phase 1	Private	APL	RAIKHEDA TPP	2	685	3/28/2016	N	WR
2024	December	Phase 1	Private	CGPL	MUNDRA UMTTP	1	800	2/25/2012	N	WR
2024	December	Phase 1	Private	IBPIL	UTKAL TPP (IND BARATH)	1	350	2/25/2016	N	ER
December Total						10	5455			

2025	January	Phase 1	Central	NTPC	MEJA STPP	2	660	1/12/2021	N	NR
2025	January	Phase 1	Private	SPPL	Thoothukudi St IV	1	525	11/30/2021	N	SR
2025	January	Phase 1	State	SCCL	SINGARENI TPP	1	600	3/13/2016	N	SR
2025	January	Phase 1	Central	NTECL	VALLUR TPP	1	500	3/28/2012	N	SR
2025	January	Phase 1	Central	NTPC	KHARGONE STPP	2	660	3/24/2020	N	WR
2025	January	Phase 1	Private	RATTANINDIA	NASIK (P) TPS	4	270	5/19/2017	N	WR
2025	January	Phase 1	Private	BALCO	BALCO TPS	2	300	3/24/2016	N	WR
2025	January	Phase 1	Central	DVC	RAGHUNATHPUR TPP	2	600	1/18/2016	N	ER
January Total						8	4115			

2025	February	Phase 1	State	RRVUNL	Suratgarh SCTPP	7	660	3/15/2020	N	NR
2025	February	Phase 1	Central	NTPC	UNCHAHAH TPS	5	210	9/28/2006	N	NR
2025	February	Phase 1	State	TSGENCO	BHADRADRI TPP	3	270	3/26/2021	N	SR
2025	February	Phase 1	State	KPCL	BELLARY TPS	3	700	3/1/2016	N	SR
2025	February	Phase 1	Central	NTPC	KHARGONE STPP	1	660	9/29/2019	N	WR
2025	February	Phase 1	Private	SKS	BINJKOTE TPP	2	300	4/25/2017	N	WR
2025	February	Phase 1	Private	JHAPL	SEIONI TPP	1	600	3/22/2016	N	WR
2025	February	Phase 1	Central	NTPC	KUDGI STPP	1	800	12/25/2016	N	SR
February Total						8	4200			
2025	March	Phase 1	Central	NTPC	TANDA TPS	5	660	9/28/2019	N	NR
2025	March	Phase 1	State	TSGENCO	BHADRADRI TPP	2	270	12/7/2020	N	SR
2025	March	Phase 1	Private	SEIL	PAINAMPURAM TPP	2	660	9/3/2015	N	SR
2025	March	Phase 1	Private	TRNE	NAWAPARA TPP	2	300	4/18/2017	N	WR
2025	March	Phase 1	State	MAHAGENCO	CHANDRAPUR(MA HARASHTRA) STPS	9	500	3/21/2016	N	WR
2025	March	Phase 1	Private	TSPL	TALWANDI SABO TPP	3	660	3/29/2016	N	NR
2025	March	Phase 1	State	CSPGCL	MARWA TPS	2	500	7/15/2016	N	WR
2025	March	Phase 1	Private	CGPL	MUNDRA UMTTP	3	800	10/16/2012	N	WR
2025	March	Phase 1	State	SCCL	SINGARENI TPP	2	600	11/25/2016	N	SR
March Total						9	4950			
2025	July	Phase 1	State	RRVUNL	CHHABRA TPP	6	660	3/29/2019	N	NR
2025	July	Phase 1	State	TSGENCO	BHADRADRI TPP	1	270	6/5/2020	N	SR
2025	July	Phase 1	Central	NTPC	Thoothukudi (JV) TPP	2	500	7/9/2015	N	SR
2025	July	Phase 1	Central	NTPC	GADARWARA TPP	1	800	3/29/2019	N	WR
2025	July	Phase 1	Private	RATTANINDIA	NASIK (P) TPS	3	270	4/14/2017	N	WR
2025	July	Phase 1	Private	SEIL	SGPL TPP	1	660	11/12/2016	N	SR
2025	July	Phase 1	State	MAHAGENCO	KORADI TPS	9	660	3/15/2016	N	WR
July Total						7	3820			
2025	November	Phase 1	Central	NTPC	MEJA STPP	1	660	3/31/2018	N	NR
2025	November	Phase 1	State	TSGENCO	KOTHAGUDEM TPS (STAGE-7)	12	800	12/26/2018	N	SR
2025	November	Phase 1	State	APPDCL	DAMODARAM SANJEEVAIAH TPS	2	800	3/17/2015	N	SR
2025	November	Phase 1	State	MPPGCL	SHREE SINGAJI TPP	4	660	3/27/2019	N	WR
2025	November	Phase 1	Central	NTPC	SOLAPUR STPS	1	660	4/7/2017	N	WR
2025	November	Phase 1	Private	RKMPPPL	UCHPINDA TPP	2	360	1/28/2016	N	WR
2025	November	Phase 1	Central	NTECL	VALLUR TPP	2	500	2/28/2013	N	SR
2025	November	Phase 1	Private	CGPL	MUNDRA UMTTP	2	800	7/17/2012	N	WR
2025	November	Phase 1	Private	SPPL	SHIRPUR TPP	1	150	9/28/2017	N	WR
November Total						9	5390			
2025	December	Phase 1	Central	NTPC	KUDGI STPP	3	800	3/12/2018	N	SR
2025	December	Phase 1	Central	NTPC	Thoothukudi (JV) TPP	1	500	3/10/2015	N	SR
2025	December	Phase 1	Private	RKMPPPL	UCHPINDA TPP	4	360	3/20/2019	N	WR
2025	December	Phase 1	Central	NTPC	MAUDA TPS	4	660	3/18/2017	N	WR
2025	December	Phase 1	State	TANGEDCO	NORTH CHENNAI TPS	4	600	9/13/2013	N	SR
2025	December	Phase 1	Central	NTPC	LARA TPP	1	800	3/23/2018	N	WR
2025	December	Phase 1	Private	RATTANINDIA	AMARAVATI	5	270	3/12/2015	N	WR
December Total						7	3990			
2026	January	Phase 1	State	RRVUNL	CHHABRA TPP	5	660	4/4/2017	N	NR
2026	January	Phase 1	State	APGENCO	RAYALASEEMA TPS	6	600	3/12/2018	N	SR
2026	January	Phase 1	Private	SEIL	PAINAMPURAM TPP	1	660	2/7/2015	N	SR
2026	January	Phase 1	State	MPPGCL	SHREE SINGAJI TPP	3	660	11/18/2018	N	WR
2026	January	Phase 1	Private	RATTANINDIA	NASIK (P) TPS	2	270	2/15/2017	N	WR
2026	January	Phase 1	State	TANGEDCO	NORTH CHENNAI TPS	5	600	3/9/2013	N	SR
2026	January	Phase 1	Private	APL	MUNDRA TPS	9	660	3/9/2012	N	WR
2026	January	Phase 1	Private	WPCL	AKALTARA TPS	2	600	1/18/2018	N	WR
2026	January	Phase 1	Central	NTPC	MAUDA TPS	2	500	3/29/2013	N	WR
January Total						9	5210			
2026	February	Phase 1	Central	NTPC	UNCHAHAH TPS	6	500	3/31/2017	N	NR
2026	February	Phase 1	State	KPCL	YERMARUS TPP	2	800	3/29/2017	N	SR
2026	February	Phase 1	State	APPDCL	DAMODARAM SANJEEVAIAH TPS	1	800	8/28/2014	N	SR
2026	February	Phase 1	Private	APL	MAHAN TPP	2	600	10/7/2018	N	WR
2026	February	Phase 1	State	MAHAGENCO	KORADI TPS	10	660	12/28/2016	N	WR
2026	February	Phase 1	Central	NTPC	SOLAPUR STPS	2	660	3/30/2019	N	WR
2026	February	Phase 1	Private	CGPL	MUNDRA UMTTP	5	800	3/18/2013	N	WR
February Total						7	4820			
2026	March	Phase 1	Central	NTPC	KUDGI STPP	2	800	3/23/2017	N	SR
2026	March	Phase 1	Central	NTECL	VALLUR TPP	3	500	2/28/2014	N	SR
2026	March	Phase 1	Private	SKS	BINJKOTE TPP	1	300	3/28/2018	N	WR
2026	March	Phase 1	Private	TRNE	NAWAPARA TPP	1	300	8/14/2016	N	WR
2026	March	Phase 1	State	MAHAGENCO	PARLI TPS	8	250	3/30/2016	N	WR
2026	March	Phase 1	Private	MBMPL	ANUPPUR TPP	2	600	3/30/2016	N	WR
2026	March	Phase 1	Private	CGPL	MUNDRA UMTTP	4	800	1/16/2013	N	WR
March Total						7	3550			
TOTAL UNITS AND CAPACITY (Phase I)						91	51080			

III. PHASE-II**Duration: July, 2026 to June, 2028**

Under this phase, the following 100 Nos. of units of capacity 46825 MW in aggregate of various thermal power plants have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the study and field tests. This phase to be completed within 2 years i.e. from July, 2026 to June, 2028.

PHASE II (JULY,2026 - JUNE ,2028)									
Year	Month	Sector	Organisation	Name of Project	Unit No.	Capacity (MW)	Date of Commissioning	Pit head	Region
2026	July	Private	RKMPL	UCHPINDA TPP	1	360	10/28/2015	N	WR
2026	July	Private	JPL	TAMNAR TPP	1	600	1/7/2015	N	WR
2026	July	Private	DBPCL	BARADARHA TPS	1	600	2/23/2014	N	WR
2026	July	Private	APL	MAHAN TPP	1	600	2/24/2013	N	WR
2026	July	Private	SEIL	SGPL TPP	2	660	2/15/2017	N	SR
2026	July	Central	NTPC	NORTH KARANPURA STPP	1	660	1/18/2023	N	ER
2026	July	Private	ADHUNIK	MAHADEV PRASAD STPP	2	270	3/29/2013	N	ER
2026	July	Central	NTPC	BONGAIGAON TPP	3	250	3/23/2019	N	NER
July Total					8	4000			
2026	August	State	GSECL	SIKKA REP. TPS	4	250	9/25/2015	N	WR
2026	August	State	MPPGCL	SHREE SINGAJI TPP	2	600	10/15/2014	N	WR
2026	August	Private	RATTANINDIA	AMARAVATI TPS	2	270	2/17/2014	N	WR
2026	August	Private	GMR ENERG	GMR WARORA TPS	1	300	2/7/2013	N	WR
2026	August	State	TSGENCO	KAKATIYA TPS	2	600	12/31/2015	N	SR
2026	August	Central	NPGL	NABINAGAR STPP	3	660	3/6/2022	N	ER
2026	August	Central	NTPC	MUZAFFARPUR TPS	4	195	3/24/2016	N	ER
2026	August	Private	GMR ENERG	KAMALANGA TPS	1	350	3/29/2013	N	ER
August Total					8	3225			
2026	November	Private	MCCPL	BANDAKHAR TPP	1	300	6/19/2015	N	WR
2026	November	Private	APL	TIRORA TPS	5	660	9/25/2014	N	WR
2026	November	State	MPPGCL	SATPURA TPS	11	250	12/25/2013	N	WR
2026	November	Private	HNPC	VIZAG TPP	1	520	12/27/2015	N	SR
2026	November	Central	NTPC	NABI NAGAR TPP	4	250	11/10/2021	N	ER
2026	November	Central	DVC	KODARMA TPP	2	500	2/15/2013	N	ER
2026	November	Central	NTPC	BONGAIGAON TPP	1	250	6/22/2015	N	NER
2026	November	State	RRVUNL	KALISINDH TPS	2	600	6/6/2015	N	NR
November Total					8	3330			
2026	December	Private	BALCO	BALCO TPS	1	300	6/4/2015	N	WR
2026	December	Private	JPPVL	NIGRI TPP	1	660	8/29/2014	N	WR
2026	December	State	MPPGCL	SHREE SINGAJI TPP	1	600	11/18/2013	N	WR
2026	December	Private	ITPCL	ITPCL TPP	1	600	9/19/2015	N	SR
2026	December	Central	NTPC	BARH I	1	660	10/30/2021	N	ER
2026	December	Central	NTPC	MUZAFFARPUR TPS	3	195	3/31/2015	N	ER
2026	December	Private	ADHUNIK	MAHADEV PRASAD STPP	1	270	11/19/2012	N	ER
2026	December	Private	NPL	RAJPURA TPP	2	700	7/6/2014	N	NR
December Total					8	3985			
2027	January	Private	MBMPL	ANUPPUR TPP	1	600	4/20/2015	N	WR
2027	January	Private	WPCL	AKALTARA TPS	4	600	8/22/2014	N	WR
2027	January	Private	DIPL	DHARIWAL TPP	1	300	11/3/2013	N	WR
2027	January	Private	CEPL	MUTHIARA TPP	1	600	12/2/2014	N	SR
2027	January	Central	NTPC	NEW NABI NAGAR TPP	2	660	3/31/2021	N	ER
2027	January	Central	NTPC	BARH II	5	660	3/4/2015	N	ER
2027	January	Private	MPL	MAITHON RB TPP	2	525	3/31/2012	N	ER
2027	January	Private	TSPL	TALWANDI SABO TPP	1	660	6/17/2014	N	NR
January Total					8	4605			
2027	February	State	MAHAGENCO	KORADI TPS	8	660	3/30/2015	N	WR
2027	February	Private	DIPL	DHARIWAL TPP	2	300	5/28/2014	N	WR
2027	February	Private	GMR ENERG	GMR WARORA TPS	2	300	8/27/2013	N	WR

2027	February	Central	NTPC	NEW NABI NAGAR TPP	1	660	7/12/2019	N	ER
2027	February	Private	HEL	HALDIA TPP	2	300	2/16/2015	N	ER
2027	February	Central	DVC	DURGAPUR STEEL TPS	2	500	3/23/2012	N	ER
2027	February	State	RRVUNL	KALISINDH TPS	1	600	5/2/2014	N	NR
February Total					7	3320			
2027	March	State	GSECL	SIKKA REP. TPS	3	250	3/29/2015	N	WR
2027	March	Private	VVL	SALORA TPP	1	135	4/10/2014	N	WR
2027	March	Private	WPCL	AKALTARA TPS	3	600	8/13/2013	N	WR
2027	March	State	MAHAGENCO	BHUSAWAL TPS	5	500	3/30/2012	N	WR
2027	March	Private	JITPL	DERANG TPP	2	600	1/24/2015	N	ER
2027	March	Private	LPGCL	LALITPUR TPS	1	660	3/26/2016	N	NR
2027	March	Private	NPL	RAJPURA TPP	1	700	1/24/2014	N	NR
March Total					7	3445			
2027	July	State	MAHAGENCO	CHANDRAPUR(MAHA RASHTRA) STPS	8	500	3/29/2015	N	WR
2027	July	Private	APL	AVANTHA BHANDAR	1	600	3/31/2014	N	WR
2027	July	Private	APL	TIRORA TPS	3	660	6/10/2013	N	WR
2027	July	Private	HEL	HALDIA TPP	1	300	1/14/2015	N	ER
2027	July	State	WBPDC	SAGARDIGHI TPS	4	500	12/15/2016	N	ER
2027	July	Private	TSPL	TALWANDI SABO TPP	2	660	10/25/2015	N	NR
2027	July	Private	APL	KAWAI TPS	2	660	12/24/2013	N	NR
July Total					7	3880			
2027	August	Private	JPL	TAMNAR TPP	4	600	3/28/2015	N	WR
2027	August	Private	VIP	BUTIBORI TPP	1	300	3/31/2014	N	WR
2027	August	Private	JPPVL	BINA TPS	2	250	3/31/2013	N	WR
2027	August	Central	NTPC	NABI NAGAR TPP	3	250	2/26/2019	N	ER
2027	August	Central	DVC	RAGHUNATHPUR TPP	1	600	8/24/2014	N	ER
2027	August	Private	LPGCL	LALITPUR TPS	2	660	1/8/2016	N	NR
2027	August	Private	APL	KAWAI TPS	1	660	5/28/2013	N	NR
August Total					7	3320			
2027	November	Private	DBPCL	BARADARHA TPS	2	600	3/24/2015	N	WR
2027	November	State	CSPGCL	MARWA TPS	1	500	3/30/2014	N	WR
2027	November	Private	APL	TIRORA TPS	2	660	3/25/2013	N	WR
2027	November	Central	NTPC	BARAUNI TPS	9	250	3/31/2018	N	ER
2027	November	Private	JITPL	DERANG TPP	1	600	4/10/2014	N	ER
2027	November	Private	PPGCL	PRAYAGRAJ TPP	2	660	9/6/2016	N	NR
2027	November	State	UPRVUNL	PARICHHA TPS	6	250	3/11/2013	N	NR
November Total					7	3520			
2027	December	Private	RATTANINDIA	AMARAVATI TPS	4	270	3/4/2015	N	WR
2027	December	Private	JPL	TAMNAR TPP	3	600	3/30/2014	N	WR
2027	December	Central	NTPC	BARAUNI TPS	8	250	1/11/2018	N	ER
2027	December	State	DPL	D.P.L. TPS	8	250	3/31/2014	N	ER
2027	December	Central	NTPC	NABI NAGAR TPP	1	250	3/20/2016	N	ER
2027	December	Private	PPGCL (Tata)	PRAYAGRAJ TPP	3	660	5/22/2017	N	NR
December total					6	2280			
2028	January	Private	JPPVL	NIGRI TPP	2	660	2/27/2015	N	WR
2028	January	Private	APL	TIRORA TPS	4	660	3/23/2014	N	WR
2028	January	State	MPPGCL	SATPURA TPS	10	250	3/22/2013	N	WR
2028	January	Private	HMEL	Hiranmaye TPP	2	150	12/31/2017	N	ER
2028	January	Private	GMR ENERG	KAMALANGA TPS	3	350	3/21/2014	N	ER
2028	January	Private	LPGCL	LALITPUR TPS	3	660	4/1/2016	N	NR
January Total					6	2730			
2028	February	Private	APL	RAIKHEDA TPP	1	685	2/24/2015	N	WR
2028	February	Private	JPL	TAMNAR TPP	2	600	3/10/2014	N	WR
2028	February	Private	IEPL	BELA TPS	1	270	3/20/2013	N	WR
2028	February	Private	HMEL	Hiranmaye TPP	1	150	6/7/2017	N	ER
2028	February	Central	NTPC	BONGAIGAON TPP	2	250	3/22/2017	N	NER
2028	February	Private	RATTANINDIA	AMARAVATI TPS	1	270	3/25/2013	N	WR

2028	February	Central	NTPC	BARH II	4	660	11/20/2013	N	ER
February Total					7	2885			
2028	March	Private	RATTANINDIA	AMARAVATI TPS	3	270	1/29/2015	N	WR
2028	March	Private	RATTANINDIA	NASIK (P) TPS	1	270	2/25/2014	N	WR
2028	March	State	GSECL	UKAI TPS	6	500	3/5/2013	N	WR
2028	March	Central	NTPC	NABI NAGAR TPP	2	250	4/3/2017	N	ER
2028	March	Private	PPGCL (Tata)	PRAYAGRAJ TPP	1	660	12/25/2015	N	NR
2028	March	Private	GMR ENERG	KAMALANGA TPS	2	350	9/28/2013	N	ER
March Total					6	2300			
TOTAL UNITS AND CAPACITY (Phase II)					100	46825			

IV. PHASE-III

Duration: July, 2028 to December, 2029

Under this phase, the following 101 Nos. of units of capacity 37215 MW in aggregate of various thermal power plants have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the study and field tests. This phase to be completed within a period of 18 months i.e. from July, 2028 to December, 2029.

PHASE III (JULY , 2028 - DEC, 2029)									
Year	Month	Sector	Organisation	Name of Project	Unit No.	Capacity (MW)	Date of Commissioning	Pithead	Region
2028	July	Private	RPSCL	ROSA TPP Ph-II	3	300	12/28/2011	N	NR
2028	July	State	UPRVUNL	PARICHHA TPS	3	210	3/29/2006	N	NR
2028	July	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI NEW TPP	1	500	12/20/2019	Y	SR
2028	July	State	APGENCO	RAYALASEEMA TPS	4	210	11/20/2007	N	SR
2028	July	Private	APL	MUNDRA TPS	7	660	11/7/2011	N	WR
2028	July	Private	JSWEL	JSW RATNAGIRI TPP	1	300	8/24/2010	N	WR
2028	July	Private	JPL	OP JINDAL TPS	4	250	6/17/2008	N	WR
2028	July	Central	NTPC	DARLIPALI STPS	2	800	7/21/2021	Y	ER
2028	July	State	WBPDC	BAKRESWAR TPS	5	210	12/24/2007	N	ER
July Total					9	3440			
2028	August	State	UPRVUNL	HARDUAGANJ TPS	8	250	9/27/2011	N	NR
2028	August	State	TSGENCO	KOTHAGUDEM TPS (NEW)	11	500	6/26/2011	N	SR
2028	August	State	APGENCO	RAYALASEEMA TPS	3	210	1/25/2007	N	SR
2028	August	Private	JSWEL	JSW RATNAGIRI TPP	4	300	10/8/2011	N	WR
2028	August	Private	APL	MUNDRA TPS	3	330	8/2/2010	N	WR
2028	August	Central	NSPCL	BHILAI TPS	1	250	4/20/2008	N	WR
2028	August	Central	NTPC	DARLIPALI STPS	1	800	12/30/2019	Y	ER
2028	August	Private	APL	TIRORA TPS	1	660	9/11/2012	N	WR
2028	August	Central	NTPC	INDIRA GANDHI STPP	3	500	11/7/2012	N	NR
2028	August	State	WBPDC	SAGARDIGHI TPS	2	300	12/21/2007	N	ER
August Total					10	4100			
2028	November	State	HPGCL	RAJIV GANDHI TPS	2	600	10/1/2010	N	NR
2028	November	Private	APL	UDUPI TPP	2	600	4/16/2011	N	SR
2028	November	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI (EXT) TPS	2	210	7/22/2003	Y	SR
2028	November	State	MAHAGENCO	KHAPARKHEDA TPS	5	500	8/5/2011	N	WR
2028	November	Private	WPCL	WARDHA WARORA TPP	1	135	6/5/2010	N	WR
2028	November	Private	JPL	OP JINDAL TPS	3	250	3/6/2008	N	WR
2028	November	Central	DVC	DURGAPUR STEEL TPS	1	500	7/29/2011	N	ER
2028	November	Private	JPPVL	BINA TPS	1	250	8/12/2012	N	WR
2028	November	State	DPL	D.P.L. TPS	7	300	11/24/2007	N	ER
November Total					9	3345			
2028	December	Private	RPSCL	ROSA TPP Ph-I	2	300	6/26/2010	N	NR
2028	December	State	APGENCO	RAYALASEEMA TPS	5	210	12/31/2010	N	SR
2028	December	State	KPCL	RAICHUR TPS	7	210	12/11/2002	N	SR
2028	December	Private	APL	MUNDRA TPS	6	660	7/20/2011	N	WR

2028	December	State	MAHAGENCO	PARAS TPS	2	250	3/27/2010	N	WR
2028	December	Private	JPL	OP JINDAL TPS	2	250	2/10/2008	N	WR
2028	December	Central	DVC	KODARMA TPP	1	500	7/20/2011	N	ER
2028	December	Private	JhPL(HR)	MAHATMA GANDHI TPS	1	660	1/12/2012	N	NR
2028	December	State	WBPDC	SANTALDIH TPS	5	250	11/7/2007	N	ER
December Total					9	3290			
2029	January	State	HPGCL	RAJIV GANDHI TPS	1	600	3/31/2010	N	NR
2029	January	Private	APL	UDUPI TPP	1	600	7/23/2010	N	SR
2029	January	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI (EXT) TPS	1	210	10/21/2002	Y	SR
2029	January	Private	JSWEL	JSW RATNAGIRI TPP	3	300	5/6/2011	N	WR
2029	January	Private	LANCO	PATHADI TPP	2	300	3/25/2010	N	WR
2029	January	State	CSPGCL	DSPM TPS	2	250	12/11/2007	N	WR
2029	January	Private	MPL	MAITHON RB TPP	1	525	6/30/2011	N	ER
2029	January	Central	NTPC	SIMHADRI	2	500	8/24/2002	N	SR
2029	January	Central	DVC	MEJIA TPS	4	210	10/12/2004	N	ER
January Total					9	3495			
2029	February	Private	RPSCL	ROSA TPP Ph-I	1	300	2/10/2010	N	NR
2029	February	State	KPCL	RAICHUR TPS	8	250	6/26/2010	N	SR
2029	February	Private	TAQA	NEYVELI TPS(Z)	1	250	10/21/2002	N	SR
2029	February	Private	WPCL	WARDHA WARORA TPP	4	135	4/30/2011	N	WR
2029	February	Private	APL	MUNDRA TPS	2	330	3/17/2010	N	WR
2029	February	Private	JPL	OP JINDAL TPS	1	250	9/2/2007	N	WR
2029	February	State	WBPDC	SANTALDIH TPS	6	250	6/29/2011	N	ER
2029	February	Private	RPSCL	ROSA TPP Ph-II	4	300	3/28/2012	N	NR
2029	February	Private	TATA PCL	JOJOBERA TPS	3	120	2/1/2002	N	ER
February Total					9	2185			
2029	March	State	PSPCL	GH TPS (LEH.MOH.)	4	250	7/31/2008	N	NR
2029	March	State	TSGENCO	KAKATIYA TPS	1	500	5/27/2010	N	SR
2029	March	Private	WPCL	WARDHA WARORA TPP	3	135	1/21/2011	N	WR
2029	March	State	MAHAGENCO	PARLI TPS	7	250	2/10/2010	N	WR
2029	March	State	MPPGCL	SANJAY GANDHI TPS	5	500	6/18/2007	N	WR
2029	March	Private	SEL	STERLITE TPP	2	600	12/29/2010	N	ER
2029	March	Private	EPGL	SALAYA TPP	2	600	6/13/2012	N	WR
2029	March	State	MAHAGENCO	BHUSAWAL TPS	4	500	3/7/2012	N	WR
2029	March	State	WBPDC	BAKRESWAR TPS	4	210	3/21/2001	N	ER
March Total					9	3545			
2029	July	State	HPGCL	YAMUNA NAGAR TPS	2	300	3/29/2008	N	NR
2029	July	State	APGENCO	Dr. N.TATA RAO TPS	7	500	10/8/2009	N	SR
2029	July	Private	APL	MUNDRA TPS	5	660	12/26/2010	N	WR
2029	July	Private	APL	MUNDRA TPS	1	330	8/4/2009	N	WR
2029	July	State	MAHAGENCO	PARAS TPS	1	250	5/31/2007	N	WR
2029	July	Private	SEL	STERLITE TPP	1	600	10/14/2010	N	ER
2029	July	Central	NTPC	INDIRA GANDHI STPP	1	500	10/31/2010	N	NR
2029	July	State	UPRVUNL	HARDUAGANJ TPS	9	250	5/25/2012	N	NR
2029	July	Private	TATA PCL	JOJOBERA TPS	2	120	2/1/2001	N	ER
July Total					9	3510			
2029	August	State	PSPCL	GH TPS (LEH.MOH.)	3	250	1/3/2008	N	NR
2029	August	Private	JSWEL	TORANGALLU TPS(SBU-II)	2	300	8/24/2009	N	SR
2029	August	Private	APL	MUNDRA TPS	4	330	12/20/2010	N	WR
2029	August	Central	NSPCL	BHILAI TPS	2	250	7/12/2009	N	WR
2029	August	State	CSPGCL	DSPM TPS	1	250	3/30/2007	N	WR
2029	August	State	KPCL	BELLARY TPS	2	500	3/23/2012	N	SR
2029	August	Central	NTPC	INDIRA GANDHI STPP	2	500	11/5/2011	N	NR
2029	August	Private	EPGL	SALAYA TPP	1	600	2/22/2012	N	WR
2029	August	Central	DVC	MEJIA TPS	7	500	9/30/2010	N	ER
August Total					9	3480			

2029	November	State	HPGCL	YAMUNA NAGAR TPS	1	300	11/1/2007	N	NR
2029	November	Private	JSWEL	TORANGALLU TPS(SBU-II)	1	300	4/23/2009	N	SR
2029	November	Private	JSWEL	JSW RATNAGIRI TPP	2	300	12/9/2010	N	WR
2029	November	Private	LANCO	PATHADI TPP	1	300	6/4/2009	N	WR
2029	November	State	MAHAGENCO	PARLI TPS	6	250	2/16/2007	N	WR
2029	November	State	OPGC	IB VALLEY TPS	4	660	7/2/2019	Y	ER
2029	November	Private	JhPL(HR)	MAHATMA GANDHI TPS	2	660	4/11/2012	N	NR
2029	November	Central	NTPC	DADRI (NCTPP)	5	490	1/25/2010	N	NR
2029	November	State	UPRVUNL	PARICHHA TPS	5	250	5/24/2012	N	NR
2029	November	Private	CESC	BUDGE BUDGE TPS	3	250	9/29/2009	N	ER
November Total					10	3760			
2029	December	State	UPRVUNL	PARICHHA TPS	4	210	12/28/2006	N	NR
2029	December	State	KPCL	BELLARY TPS	1	500	12/3/2007	N	SR
2029	December	Private	WPCL	WARDHA WARORA TPP	2	135	10/10/2010	N	WR
2029	December	Private	TATA PCL	TROMBAY TPS	8	250	3/26/2009	N	WR
2029	December	State	MAHAGENCO	KHAPARKHEDA TPS	4	210	1/7/2001	N	WR
2029	December	State	OPGC	IB VALLEY TPS	3	660	7/2/2019	Y	ER
2029	December	Central	NTPC	SIMHADRI	1	500	2/22/2002	N	SR
2029	December	Private	VIP	BUTIBORI TPP	2	300	8/17/2012	N	WR
2029	December	State	WBPDC	SAGARDIGHI TPS	1	300	7/20/2008	N	ER
December Total					9	3065			
TOTAL UNITS AND CAPACITY (Phase III)					101	37215			

V. PHASE-IV

Duration: January, 2030 to December, 2030

Under this phase, the following 191 Nos. of units of capacity 55767 MW in aggregate of various thermal power plants have been planned and identified for the upgradation/retrofitting for flexible operation including the study and field tests. This phase to be completed within a period of 12 months i.e. from January, 2030 to December, 2030.

In case the utilities comprehend that 40% operation of units having age more than 40 years under this phase is not viable/possible, the utilities may opt for 2-shift operation by suitable retrofits/study/tests. However the duration for the retrofits including the study/test of this phase shall be the same.

PHASE IV (JAN,2030 - DEC,2030)										
Year	Month	Sector	Organisation	Name of Project	Unit No.	Capacity (MW)	Date of Commissioning	Pit head	Age as on 31.12.2029	Region
2030	January	State	UPRVUNL	ANPARA TPS	7	500	3/6/2016	Y	13.8	NR
2030	January	Central	NTPC	RIHAND STPS	3	500	1/31/2005	Y	24.9	NR
2030	January	State	PSPCL	ROPAR TPS	6	210	3/30/1993	N	36.8	NR
2030	January	State	RRVUNL	KOTA TPS	4	210	5/1/1989	N	40.7	NR
2030	January	State	PSPCL	ROPAR TPS	3	210	3/31/1988	N	41.8	NR
2030	January	Central	NTPC	SINGRAULI STPS	5	200	2/26/1984	Y	45.9	NR
2030	January	Central	NTPC	SINGRAULI STPS	1	200	2/14/1982	Y	47.9	NR
2030	January	Central	NTPC	FARAKKA STPS	6	500	3/7/2011	Y	18.8	ER
2030	January	Central	NTPC	TALCHER STPS	3	500	2/21/2003	Y	26.9	ER
2030	January	State	OPGC	IB VALLEY TPS	1	210	6/2/1994	Y	35.6	ER
2030	January	State	WBPDC	KOLAGHAT TPS	6	210	3/17/1991	N	38.8	ER
2030	January	Central	NTPC	BARAUNI TPS	6	105	5/1/1983	N	46.7	ER

2030	January	Central	NTPC	RAMAGUNDE M STPS	7	500	9/26/2004	Y	25.3	SR
2030	January	State	TANGEDCO	NORTH CHENNAI TPS	2	210	3/27/1995	N	34.8	SR
2030	January	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI TPS-II	7	210	6/19/1993	Y	36.6	SR
2030	January	State	APGENCO	Dr. N.TATA RAO TPS	4	210	8/23/1990	N	39.4	SR
2030	January	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI TPS-II	1	210	1/17/1988	Y	42.0	SR
2030	January	Central	NTPC	RAMAGUNDE M STPS	3	200	12/13/1984	Y	45.1	SR
2030	January	State	TANGEDCO	Thoothukudi TPS	1	210	7/9/1979	N	50.5	SR
2030	January	Central	NTPC	VINDHYACHA L STPS	13	500	8/6/2015	Y	14.4	WR
2030	January	Central	NTPC	VINDHYACHA L STPS	12	500	3/22/2013	Y	16.8	WR
2030	January	Central	NTPC	SIPAT STPS	5	500	8/13/2008	Y	21.4	WR
2030	January	State	MPPGCL	SANJAY GANDHI TPS	3	210	2/28/1999	N	30.9	WR
2030	January	State	MPPGCL	SANJAY GANDHI TPS	1	210	3/26/1993	N	36.8	WR
2030	January	State	MAHAGENCO	KHAPARKHED A TPS	2	210	1/8/1990	N	40.0	WR
2030	January	Central	NTPC	KORBA STPS	5	500	3/25/1988	Y	41.8	WR
2030	January	State	MAHAGENCO	CHANDRAPUR (MAHARASHTRA) STPS	4	210	3/8/1986	N	43.8	WR
2030	January	State	GSECL	WANAKBORI TPS	3	210	3/15/1984	N	45.8	WR
2030	January	State	MAHAGENCO	KORADI TPS	6	210	3/30/1982	N	47.8	WR
2030	January	Private	TOR. POW. (UNOSUGEN)	SABARMATI (D-F STATIONS)	1	120	10/12/1978	N	51.3	WR
			January Total			30	8685			
2030	February	State	UPRVUNL	ANPARA TPS	6	500	6/8/2015	Y	14.6	NR
2030	February	State	PSPCL	GH TPS (LEH.MOH.)	2	210	10/16/1998	N	31.2	NR
2030	February	Central	NTPC	DADRI (NCTPP)	3	210	3/23/1993	N	36.8	NR
2030	February	Central	NTPC	UNCHAHAH TPS	2	210	3/22/1989	N	40.8	NR
2030	February	Central	NTPC	TANDA TPS	1	110	3/21/1988	N	41.8	NR
2030	February	Central	NTPC	SINGRAULI STPS	4	200	11/2/1983	Y	46.2	NR
2030	February	State	UPRVUNL	OBRA TPS	12	200	3/28/1981	N	48.8	NR
2030	February	Central	NTPC	KAHALGAON TPS	7	500	7/31/2009	Y	20.4	ER
2030	February	Private	CESC	BUDGE BUDGE TPS	2	250	3/6/1999	N	30.8	ER
2030	February	State	TVNL	TENUGHAT TPS	1	210	4/14/1994	N	35.7	ER
2030	February	Central	NTPC	FARAKKA STPS	3	200	8/6/1987	Y	42.4	ER
2030	February	State	KPCL	RAICHUR TPS	6	210	7/22/1999	N	30.5	SR
2030	February	State	APGENCO	RAYALASEEM A TPS	2	210	2/25/1995	N	34.9	SR
2030	February	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI TPS-II	6	210	10/30/1992	Y	37.2	SR

2030	February	State	TANGEDCO	METTUR TPS	4	210	3/27/1990	N	39.8	SR
2030	February	State	TANGEDCO	METTUR TPS	2	210	12/1/1987	N	42.1	SR
2030	February	Central	NTPC	RAMAGUNDE M STPS	2	200	5/29/1984	Y	45.6	SR
2030	February	Private	SPL	SASAN UMTTP	6	660	3/19/2015	Y	14.8	WR
2030	February	State	CSPGCL	KORBA-WEST TPS	5	500	3/22/2013	Y	16.8	WR
2030	February	State	MPPGCL	AMARKANTA K EXT TPS	3	210	6/15/2008	Y	21.6	WR
2030	February	State	GSECL	WANAKBORI TPS	7	210	12/31/1998	N	31.0	WR
2030	February	State	MAHAGENCO	CHANDRAPUR (MAHARASHTRA) STPS	6	500	3/11/1992	N	37.8	WR
2030	February	Central	NTPC	VINDHYACHA L STPS	4	210	12/26/1989	Y	40.0	WR
2030	February	State	GSECL	WANAKBORI TPS	6	210	11/18/1987	N	42.1	WR
2030	February	State	MAHAGENCO	CHANDRAPUR (MAHARASHTRA) STPS	3	210	5/3/1985	N	44.7	WR
2030	February	Private	TATA PCL	TROMBAY TPS	5	500	1/25/1984	N	46.0	WR
2030	February	State	GSECL	WANAKBORI TPS	1	210	3/23/1982	N	47.8	WR
	February Total				27	7470				
2030	March	Central	NTPC	RIHAND STPS	6	500	10/17/2013	Y	16.2	NR
2030	March	Central	NTPC	TANDA TPS	4	110	2/20/1998	N	31.9	NR
2030	March	Central	NTPC	DADRI (NCTPP)	2	210	12/18/1992	N	37.1	NR
2030	March	Central	NTPC	TANDA TPS	2	110	3/11/1989	N	40.8	NR
2030	March	State	UPRVUNL	ANPARA TPS	3	210	3/12/1988	Y	41.8	NR
2030	March	State	RRVUNL	KOTA TPS	2	110	7/13/1983	N	46.5	NR
2030	March	State	UPRVUNL	OBRA TPS	9	200	1/26/1980	N	50.0	NR
2030	March	Central	NTPC	KAHALGAON TPS	6	500	3/16/2008	Y	21.8	ER
2030	March	Private	CESC	BUDGE BUDGE TPS	1	250	9/16/1997	N	32.3	ER
2030	March	Central	NTPC	KAHALGAON TPS	2	210	3/17/1994	Y	35.8	ER
2030	March	Central	NTPC	FARAKKA STPS	2	200	12/24/1986	Y	43.0	ER
2030	March	Private	JSWEL	TORANGALLU TPS(SBU-I)	2	130	5/16/1999	N	30.6	SR
2030	March	State	APGENCO	Dr. N.TATA RAO TPS	6	210	2/24/1995	N	34.9	SR
2030	March	State	TANGEDCO	Thoothukudi TPS	4	210	2/11/1992	N	37.9	SR
2030	March	Central	NTPC	RAMAGUNDE M STPS	6	500	10/16/1989	Y	40.2	SR
2030	March	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI TPS-II	3	210	3/29/1987	Y	42.8	SR
2030	March	Central	NTPC	RAMAGUNDE M STPS	1	200	10/27/1983	Y	46.2	SR
2030	March	Private	SPL	SASAN UMTTP	5	660	8/24/2014	Y	15.4	WR
2030	March	Central	NTPC	VINDHYACHA L STPS	11	500	6/14/2012	Y	17.6	WR
2030	March	Central	NTPC	SIPAT STPS	4	500	5/27/2007	Y	22.6	WR

2030	March	State	GSECL	GANDHI NAGAR TPS	5	210	3/17/1998	N	31.8	WR
2030	March	State	GSECL	GANDHI NAGAR TPS	4	210	7/20/1991	N	38.5	WR
2030	March	State	MAHAGENCO	KHAPARKHEDA TPS	1	210	3/26/1989	N	40.8	WR
2030	March	Central	NTPC	VINDHYACHAL STPS	1	210	10/10/1987	Y	42.3	WR
2030	March	State	CSPGCL	KORBA-WEST TPS	3	210	3/26/1985	Y	44.8	WR
2030	March	Central	NTPC	KORBA STPS	2	200	10/31/1983	Y	46.2	WR
2030	March	State	MAHAGENCO	NASIK TPS	5	210	1/30/1981	N	49.0	WR
	March Total				27	7190				
2030	July	Central	NTPC	RIHAND STPS	5	500	5/25/2012	Y	17.6	NR
2030	July	State	PSPCL	GH TPS (LEH.MOH.)	1	210	12/29/1997	N	32.0	NR
2030	July	State	PSPCL	ROPAR TPS	5	210	3/29/1992	N	37.8	NR
2030	July	State	PSPCL	ROPAR TPS	4	210	1/29/1989	N	40.9	NR
2030	July	Central	NTPC	SINGRAULI STPS	7	500	11/24/1987	Y	42.1	NR
2030	July	Central	NTPC	SINGRAULI STPS	3	200	3/28/1983	Y	46.8	NR
2030	July	State	UPRVUNL	OBRA TPS	10	200	1/14/1979	N	51.0	NR
2030	July	Central	NTPC	KAHALGAON TPS	5	500	3/31/2007	Y	22.8	ER
2030	July	State	TVNL	TENUGHAT TPS	2	210	10/10/1996	N	33.2	ER
2030	July	Central	NTPC	FARAKKA STPS	5	500	2/16/1994	Y	35.9	ER
2030	July	Central	NTPC	FARAKKA STPS	1	200	1/1/1986	Y	44.0	ER
2030	July	State	KPCL	RAICHUR TPS	5	210	1/31/1999	N	30.9	SR
2030	July	State	TANGEDCO	NORTH CHENNAI TPS	1	210	10/25/1994	N	35.2	SR
2030	July	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI TPS-II	5	210	12/31/1991	Y	38.0	SR
2030	July	State	APGENCO	Dr. N.TATA RAO TPS	3	210	10/5/1989	N	40.3	SR
2030	July	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI TPS-II	2	210	2/6/1987	Y	42.9	SR
2030	July	State	TANGEDCO	Thoothukudi TPS	3	210	4/16/1982	N	47.7	SR
2030	July	Private	SPL	SASAN UMTTP	3	660	5/21/2014	Y	15.6	WR
2030	July	Central	NTPC	SIPAT STPS	3	660	6/2/2012	Y	17.6	WR
2030	July	Central	NTPC	VINDHYACHAL STPS	10	500	3/8/2007	Y	22.8	WR
2030	July	State	MAHAGENCO	CHANDRAPUR (MAHARASHTRA) STPS	7	500	10/1/1997	N	32.3	WR
2030	July	State	MAHAGENCO	CHANDRAPUR (MAHARASHTRA) STPS	5	500	3/22/1991	N	38.8	WR
2030	July	Central	NTPC	KORBA STPS	6	500	2/26/1989	Y	40.9	WR
2030	July	Central	NTPC	KORBA STPS	4	500	5/31/1987	Y	42.6	WR
2030	July	State	GSECL	UKAI TPS	5	210	1/30/1985	N	44.9	WR
2030	July	State	CSPGCL	KORBA-WEST TPS	2	210	6/21/1983	Y	46.6	WR

2030	July	State	MAHAGENCO	NASIK TPS	4	210	7/10/1980	N	49.5	WR
	July Total				27	9150				
2030	August	Private	LAPPL	ANPARA C TPS	2	600	11/15/2011	Y	18.1	NR
2030	August	State	UPRVUNL	ANPARA TPS	5	500	7/4/1994	Y	35.5	NR
2030	August	Central	NTPC	DADRI (NCTPP)	1	210	12/21/1991	N	38.1	NR
2030	August	Central	NTPC	UNCHA HAR TPS	1	210	11/21/1988	N	41.1	NR
2030	August	State	UPRVUNL	ANPARA TPS	2	210	2/28/1987	Y	42.9	NR
2030	August	State	RRVUNL	KOTA TPS	1	110	1/17/1983	N	47.0	NR
2030	August	State	UPRVUNL	HARDUAGANJ TPS	7	105	3/31/1978	N	51.8	NR
2030	August	Central	NTPC	TALCHER STPS	6	500	2/6/2005	Y	24.9	ER
2030	August	Central	NTPC	KAHALGAON TPS	4	210	3/18/1996	Y	33.8	ER
2030	August	State	WBPDC	KOLAGHAT TPS	5	210	12/28/1993	N	36.0	ER
2030	August	State	WBPDC	KOLAGHAT TPS	3	210	12/16/1985	N	44.1	ER
2030	August	Private	JSWEL	TORANGALLU TPS(SBU-I)	1	130	1/15/1999	N	31.0	SR
2030	August	State	KPCL	RAICHUR TPS	4	210	9/29/1994	N	35.3	SR
2030	August	State	TANGEDCO	Thoothukudi TPS	5	210	3/31/1991	N	38.8	SR
2030	August	Central	NTPC	RAMAGUNDE M STPS	5	500	3/26/1989	Y	40.8	SR
2030	August	State	TANGEDCO	METTUR TPS	1	210	1/4/1987	N	43.0	SR
2030	August	State	TANGEDCO	Thoothukudi TPS	2	210	12/17/1980	N	49.1	SR
2030	August	Private	SPL	SASAN UMTTP	4	660	3/25/2014	Y	15.8	WR
2030	August	Central	NTPC	SIPAT STPS	2	660	12/24/2011	Y	18.0	WR
2030	August	Central	NTPC	VINDHYACHA L STPS	9	500	7/27/2006	Y	23.4	WR
2030	August	Private	APL	DAHANU TPS	2	250	3/29/1995	N	34.8	WR
2030	August	Central	NTPC	VINDHYACHA L STPS	6	210	2/1/1991	Y	38.9	WR
2030	August	Central	NTPC	VINDHYACHA L STPS	3	210	2/3/1989	Y	40.9	WR
2030	August	State	GSECL	WANAKBORI TPS	5	210	9/23/1986	N	43.3	WR
2030	August	Private	TOR. POW. (UNOSUGEN)	SABARMATI (D-F STATIONS)	2	121	12/31/1984	N	45.0	WR
2030	August	Central	NTPC	KORBA STPS	1	200	2/28/1983	Y	46.9	WR
2030	August	State	MAHAGENCO	NASIK TPS	3	210	4/26/1979	N	50.7	WR
	August Total				27	7776				
2030	November	Private	LAPPL	ANPARA C TPS	1	600	11/12/2011	Y	18.1	NR
2030	November	Central	NTPC	DADRI (NCTPP)	4	210	3/24/1994	N	35.8	NR
2030	November	Central	NTPC	TANDA TPS	3	110	3/28/1990	N	39.8	NR
2030	November	State	RRVUNL	KOTA TPS	3	210	9/25/1988	N	41.3	NR
2030	November	Central	NTPC	SINGRAULI STPS	6	500	12/23/1986	Y	43.1	NR

2030	November	Central	NTPC	SINGRAULI STPS	2	200	11/25/1982	Y	47.1	NR	
2030	November	State	UPRVUNL	OBRA TPS	11	200	12/31/1977	N	52.0	NR	
2030	November	Central	NTPC	TALCHER STPS	5	500	5/13/2004	Y	25.7	ER	
2030	November	State	OPGC	IB VALLEY TPS	2	210	10/22/1995	Y	34.2	ER	
2030	November	Central	NTPC	FARAKKA STPS	4	500	9/25/1992	Y	37.3	ER	
2030	November	Central	NTPC	BARAUNI TPS	7	105	3/31/1985	N	44.8	ER	
2030	November	State	TSGENCO	KOTHAGUDE M TPS (NEW)	10	250	2/28/1998	N	31.9	SR	
2030	November	State	APGENCO	Dr. N.TATA RAO TPS	5	210	3/31/1994	N	35.8	SR	
2030	November	Central	NEYVELI LIGNITE	NEYVELI TPS-II	4	210	3/30/1991	Y	38.8	SR	
2030	November	State	TANGEDCO	METTUR TPS	3	210	3/22/1989	N	40.8	SR	
2030	November	State	KPCL	RAICHUR TPS	2	210	3/2/1986	N	43.9	SR	
2030	November	State	APGENCO	Dr. N.TATA RAO TPS	2	210	10/10/1980	N	49.3	SR	
2030	November	Private	SPL	SASAN UMTTPP	2	660	12/18/2013	Y	16.0	WR	
2030	November	Central	NTPC	SIPAT STPS	1	660	6/27/2011	Y	18.5	WR	
2030	November	State	MAHAGENCO	KHAPARKHEDA TPS	3	210	5/31/2000	N	29.6	WR	
2030	November	Private	APL	DAHANU TPS	1	250	1/6/1995	N	35.0	WR	
2030	November	Central	NTPC	VINDHYACHAL STPS	5	210	3/31/1990	Y	39.8	WR	
2030	November	Private	TOR. POW. (UNOSUGEN)	SABARMATI (D-F STATIONS)	3	121	9/28/1988	N	41.3	WR	
2030	November	State	CSPGCL	KORBA-WEST TPS	4	210	3/13/1986	Y	43.8	WR	
2030	November	State	CSPGCL	KORBA-WEST TPS	1	210	3/30/1984	Y	45.8	WR	
2030	November	State	GSECL	WANAKBORI TPS	2	210	1/15/1983	N	47.0	WR	
2030	November	State	GSECL	UKAI TPS	4	200	3/28/1979	N	50.8	WR	
			November Total			27	7586				
2030	December	Central	NTPC	RIHAND STPS	4	500	9/24/2005	Y	24.3	NR	
2030	December	State	UPRVUNL	ANPARA TPS	4	500	7/19/1993	Y	36.5	NR	
2030	December	Central	NTPC	RIHAND STPS	2	500	7/5/1989	Y	40.5	NR	
2030	December	Central	NTPC	RIHAND STPS	1	500	3/31/1988	Y	41.8	NR	
2030	December	State	UPRVUNL	ANPARA TPS	1	210	3/24/1986	Y	43.8	NR	
2030	December	State	UPRVUNL	OBRA TPS	13	200	7/21/1982	N	47.5	NR	
2030	December	Central	NTPC	TALCHER STPS	4	500	10/25/2003	Y	26.2	ER	
2030	December	Central	NTPC	KAHALGAON TPS	3	210	3/24/1995	Y	34.8	ER	
2030	December	Central	NTPC	KAHALGAON TPS	1	210	3/31/1992	Y	37.8	ER	
2030	December	State	WBPDC	KOLAGHAT	4	210	1/24/1984	N	46.0	ER	

				TPS						
2030	December	State	TANGEDCO	NORTH CHENNAI TPS	3	210	2/24/1996	N	33.9	SR
2030	December	State	APGENCO	RAYALASEEM A TPS	1	210	3/31/1994	N	35.8	SR
2030	December	State	KPCL	RAICHUR TPS	3	210	3/30/1991	N	38.8	SR
2030	December	Central	NTPC	RAMAGUNDE M STPS	4	500	6/26/1988	Y	41.5	SR
2030	December	State	KPCL	RAICHUR TPS	1	210	3/29/1985	N	44.8	SR
2030	December	State	APGENCO	Dr. N.TATA RAO TPS	1	210	11/1/1979	N	50.2	SR
2030	December	Private	SPL	SASAN UMTTP	1	660	5/30/2013	Y	16.6	WR
2030	December	Central	NTPC	KORBA STPS	7	500	11/25/2010	Y	19.1	WR
2030	December	State	MPPGCL	SANJAY GANDHI TPS	4	210	11/23/1999	N	30.1	WR
2030	December	State	MPPGCL	SANJAY GANDHI TPS	2	210	3/27/1994	N	35.8	WR
2030	December	State	GSECL	GANDHI NAGAR TPS	3	210	3/20/1990	N	39.8	WR
2030	December	Central	NTPC	VINDHYACHAL STPS	2	210	7/23/1988	Y	41.5	WR
2030	December	State	GSECL	WANAKBORI TPS	4	210	3/9/1986	N	43.8	WR
2030	December	Central	NTPC	KORBA STPS	3	200	3/17/1984	Y	45.8	WR
2030	December	State	MAHAGENCO	BHUSAWAL TPS	3	210	9/18/1982	N	47.3	WR
2030	December	State	GSECL	UKAI TPS	3	200	1/21/1979	N	51.0	WR
	December Total				26	7910				
	TOTAL UNITS AND CAPACITY (Phase IV)				191	55767				

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./617/2023-24]